



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]
No. 191]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 23, 2007/फाल्गुन 4, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 23, 2007/PHALGUNA 4, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2007

का.आ. 273(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1356(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के धर्मापुरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि.मी. से 163.000 कि.मी. (कृष्णागिरि-थोपुरघाट सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 सितम्बर, 2006 को "दिनाथौथी" और तारीख 22 सितम्बर, 2006 को "दि हिन्दू" में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 113.275 कि. मी. से 163.000 कि. मी. तक (चून्नागिरी से थोपुरघाट सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अधिवास स्थित भूमि का सक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	संरक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मी में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
				उप मंडल से पूर्व	उप मंडल के बाद				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	धर्मापुरी	1. पलाकोडे	(1) कुम्बाराहल्ली	234 (भाग)	234/1	सरकारी	ओनई	94	सरकारी
				253/1	253/1	सरकारी	मूल्यांकित बंजर शुष्क	2000	सरकारी
				253/2 (भाग)	253/2ए	निजी	शुष्क	818	बीमामल पत्नी देवन
				255/1	255/1	सरकारी	मूल्यांकित बंजर शुष्क	1200	सरकारी
				255/2 (भाग)	255/3	सरकारी	मूल्यांकित बंजर शुष्क	450	सरकारी
				432/1ए (भाग)	432/1ए1	निजी	शुष्क	75	साईबुनिसा पत्नी शान बाशा
				432/2 (भाग)	432/3	सरकारी	सड़क का हासिया	2303	सरकारी
				433/2 (भाग)	433/3	सरकारी	सड़क का हासिया	1903	सरकारी
				434/3 (भाग)	434/3ए	निजी	शुष्क	360	निन्जामल पत्नी चिन्नाथाम्बी
				435/1ए (भाग)	435/1ए1	निजी	शुष्क	950	1. चिन्नासामी 2. माथाप्पन के पुत्र मुथु गाउँडर
				435/1बी (भाग)	435/1बी1	निजी	शुष्क	579	पापाली @ पेरुमल पुत्र पाल्लान @ पेरुमल
				435/1सी (भाग)	435/1सी1	निजी	शुष्क	717	राजी गाउँडर पुत्र पाल्लान @ पेरुमल
				435/2 (भाग)	435/3	सरकारी	सड़क का हासिया	2233	सरकारी
				437 (भाग)	437/1	निजी	शुष्क	4509	1. करुप्पन पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 2. चिन्नापाईयन पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 3. कान्नीयाप्पन पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 4. धानापाल पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 5. देवराज पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 6. पेरीयाप्पा पुत्री कुल्लान @ नालागाउँडर 7. कमला पुत्र कुल्लान @ नालागाउँडर 8. कुल्लान @ नालागाउँडर
			(2) कारिमगलम	1	1	सरकारी	बट्टई	20550	सरकारी / राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर
				2	2	सरकारी	बट्टई	15550	सरकारी / राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर
				3/1	3/1	निजी	शुष्क	300	1. करुप्पन @ चिन्नासामी पुत्र माल्लुकारान @ पेरीयन्न 2. मुरुगन 3. चन्द्रियन के पुत्र अरीय गाउँडर 4. सिगांसम 5. पाटट्टु के पुत्र कोलुयान 6. चिन्नापाईयन पुत्र नाल्लाकवुनदार
				3/2 (भाग)	3/2ए	निजी	शुष्क	129	करुप्पन @ चिन्नासामी पुत्र माल्लुकारान @ पेरीयन्न
				3/3 (भाग)	3/3ए	निजी	शुष्क	356	चिन्नासामी पुत्र अरीय गाउँडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				3/4 (भाग)	3/4ए	निजी	शुष्क	322	चन्द्रियन पुत्र अरीया गाउँदर
				3/5 (भाग)	3/5ए	निजी	शुष्क	326	चिन्नासामी पुत्र मुथु गाउँदर
				3/6 (भाग)	3/6ए	निजी	शुष्क	259	पाटट्ट पुत्र कोलुवायान
				3/7 (भाग)	3/7ए	निजी	शुष्क	239	सिगांराम पुत्र कोलुवायान
				3/8 (भाग)	3/8ए	निजी	शुष्क	551	चिन्नापाईयन पुत्र कुलान @ नालागाउँदर
				4/1 (भाग)	4/1ए	निजी	शुष्क	1118	1. चिन्नावान पुत्र कुमासथा 2. चिन्नाथाम्बाई पुत्र कुमासथा
				4/4 (भाग)	4/4ए	निजी	शुष्क	518	अनुमानथा गाउँदर पुत्र कालानथा @ अरुमुथु गाउँदर
				4/5 (भाग)	4/5ए	निजी	शुष्क	596	करुपन पुत्र मुशापुरी @ नाला गाउँदर
				5/4	5/4	निजी	शुष्क	800	1. चिन्नासामी 2. चन्द्रियन 3. मुरुगन के पुत्र अरीया गाउँदर 4. अरुण पुत्र विदी 5. अरीय गाउँदर पुत्र अनुमानथा गाउँदर 6. यु ए कान्नीयाप्पन 7. चिन्नाप्पायान के पुत्र नालागाउँदर 8. विदी पुत्र अरीमुथु गाउँदर 9. माहेनदरीयन पुत्र नाटाराजम
				5/6 (भाग)	5/6ए	निजी	शुष्क	145	मुरुगन पुत्र अरीय गाउँदर
				6/2ए (भाग)	6/2ए1	निजी	शुष्क	923	1. अरुण पुत्र वेदीयाप्पन 2. नाला गाउँदर 3. चिन्नाप्पासीयन पुत्र नालागाउँदर 4. वेदीयाप्पन पुत्र अरीमुथु गाउँदर
				6/2बी (भाग)	6/2बी1	निजी	शुष्क	202	1. अरीय गाउँदर पुत्र अनुमानथा गाउँदर 2. पालानी पुत्र कालानथाई @पेरीची 3. यु ए कान्नीयाप्पन 4. चिन्नाप्पायान के पुत्र नालागाउँदर 5. कुल्लान @ नालागाउँदर पुत्र नाल्लान
				6/2सी (भाग)	6/2सी1	निजी	शुष्क	425	पालानी पुत्र कोलानथाई @ पेरीची
				7/2ए (भाग)	7/2ए1	निजी	शुष्क	794	पालानी पुत्र कोलानथाई @ पेरीची
				7/2डी (भाग)	7/2डी1	निजी	शुष्क	284	कुप्पुसामी @ करुपन पुत्र मुसापुरी @ पेरीयन
				7/2ई (भाग)	7/2ई 1	निजी	शुष्क	313	1. पीकाम्मल पत्नी पलानि 2. पेधियाम्मल पत्नी पलानि
				11/1ए (भाग)	11/1ए1	निजी	शुष्क	74	1. चिन्नासामी @ नाल्ला गाउँदर 2. कालीयप्पन पुत्र सामीयर माथन
					11/1ए3	निजी	शुष्क	98	1. चिन्नासामी @ नाल्ला गाउँदर 2. कालीयप्पन पुत्र सामीयर माथन
				11/ 1सी1	11/1सी1	निजी	शुष्क	750	1. मुरुगेशन पुत्र कालानिडी @ पेरीयचि 2. राजी पुत्र कोलानथाई @ पेरीयचि
				12/1सी1ए(भाग)	12/8	निजी	शुष्क	14	1. कृष्णन पुत्र कान्नु गाउँदर 2. सारासु पत्नी कृष्णन
				12/3 (भाग)	12/3ए	निजी	शुष्क	16	कावेरी पुत्र नागाप्पा गाउँदर
				12/4 (भाग)	12/4ए	निजी	शुष्क	77	1. कृष्णन पुत्र कान्नु गाउँदर 2. सारासु पत्नी कृष्णन
				12/1सी1बी(भाग)	12/9	निजी	शुष्क	114	1. मुरुगेशन पुत्र मुनुसामी, 2. शान्धी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				12/1सी2(भाग)	12/1सी2ए	निजी	शुष्क	23	1. धिरुपति पुत्र करुणन 2. बालासुब्रामणियन पुत्र वैक्टेशा चीटी 3. शंकरन पुत्र कोलान्दी गाउंडर
				12/2ए (भाग)	12/2ए2	निजी	शुष्क	51	1.धिरुपति 2. मुनुसामी 3.राजामनीकम के पुत्र कारुनगकानन
				12/2सी(भाग)	12/2सी1	निजी	शुष्क	3	वैक्टासुब्रामनियन पुत्र गोविन्दन
				13/ 1ए1क्यु(भाग)	13/7	निजी	मकान स्थल	280	पी.वी. वैदिदेलु पुत्र वेदिप्पा गाउंडर
				13/1ए1ए1(भाग)	13/4	निजी	शुष्क	183	1. मलारविजी पत्नी राजामनी 2. कावेरी 3. चिन्नासामी 4. मुरुगेसन 5. जदीयन 6. पथमावती 8. गुलरोज 9. बी कुमार 10. ज्योति 11. लक्ष्मी 12. गोपाल पुत्र कानन 13. चिन्नासामी 14. नेदुनवेजियन 15. मंगामल 16. आर कुप्पन 17. शान्ति 18. जी. देवाराजन 19. के सरस्यती 20. जी. सम्यत 21. के एम घनाबाकियम 22. एम. गुनारोखरन 23. के रामाकृष्णन 24. मुरुगन 25. सेलवाराज 26. सी. सरला 27. हसन 28. रामाथी 29. मनी 30. तुलसीयामल
				13/5	निजी	शुष्क	239	31. पसवाम्मल 32. सईद मालिक	
				13/ बी1(भाग)	13/1बी1बी	निजी	शुष्क	63	1. सन्तकुमार 2. राजादेल 3. मुनीराज पुत्र दुरईसामी
				13/1बी2(भाग)	13/1बी2बी	निजी	शुष्क	496	1. मुरुगेसन 2. कान्नीयप्पन 3. कुप्पुसामी 4. कान्नीयन 5. पावीयप्पन पुत्र गोपाल
				13/1बी3बी	13/1बी3बी	निजी	शुष्क	250	मुरुगेसन पुत्र गोविन्दा गाउंडर मिनाक्षी पत्नी नालप्पा वेथी
				13/1बी3सी	13/1बी3सी	निजी	शुष्क	250	पालयन पुत्र पेरैयासामी
				13/1बी3ए1(भाग)	13/8	निजी	शुष्क	310	1. धिरुपति पुत्र करुणन 2. मारिमुधु पुत्र एंगामुधु 3. मुरुगेसन पुत्र पलागि गाउंडर 4. कल्यानी पत्नी श्रीनिवासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				14/1बी2ए (भाग)	14/11	निजी	शुष्क	1000
								1. टी. सी. मुरुगेसन पुत्र चिन्नापिया गाउंडर 2. राजासेखर 3. सीवासानमुगम के पुत्र अनुमथा गाउंडर 4. पेरीयप्पा पत्नी मुरुगन 5. पाचीयप्पा गाउंडर पुत्र मानुगान @पधियप्पन 6. वेक्टेसन पुत्र रंगासामी 7. सेंथेल पुत्र चिन्नापिल्लै 8. मुरुगेसन पुत्र चिन्नासामी 9. अरुमुगम पुत्र चिन्नासामी 10. कृष्णन पुत्र वेक्टाप्पा नायडु 11. मुरुगेसन पुत्र अनुमनथान 12. अनुमनथान पुत्र मुनिया गाउंडर
				14/4	14/4	निजी	शुष्क	250
				14/1बी2बी (भाग)	14/12	निजी	शुष्क	45
								पट्टाबीरामन पुत्र सेशादरी 1. अस्थानारी पुत्र मेरीयासामी 2. एन. साक्कासावती पुत्र नानजुनादन 3. वरदाराज पुत्र चिन्नु 4. मुरुगेसन पुत्र पथालन @रामागाउंडर 5. राजामनी पुत्र थंगावेल 6. निर्मला पत्नी थंगावेल 7. कान्था पत्नी थंगावेल 8. सुन्दरापार्थी पुत्र सुब्बास अचारी 9. श्रीपरास्वथासीनी पत्नी के आर वेक्टेसन 10. एम सुन्दरी पत्नी मुथुवेल 11. रामागाउंडर पुत्र साक्कागाउंडर 12. विनोबाजी पुत्र मेरी गाउंडर 13. दुर्गाजी पुत्र चिन्नासामी 14. सी. परियादरसीनी
					14/13	निजी	शुष्क	45
				14/1बी2सी (भाग)	14/14	निजी	शुष्क	200
								1. लक्ष्मी पत्नी मुरुगन 2. नालजाम्मल पत्नी चिन्नासामी 3. चिन्नासामी पुत्र वटलान @ रामा गाउंडर 4. चिल्लान 5. कालीयामल 6. ए पाला गाउंडर 7. गोशम्मल पत्नी विश्वनाथन 8. पार्वती पत्नी पेरुमल 9. पेरुमल पुत्र मेरीयप्पा गाउंडर 10. पुल्लुकारन
				14/3 (भाग)	14/3बी	निजी	शुष्क	272
				14/9	14/9	निजी	शुष्क	50
				15/1ए (भाग)	15/1ए2	निजी	शुष्क	6
				16/1ए1ए	16/1ए1ए	निजी	शुष्क	34
				16/1ए1बी	16/1ए1बी	निजी	शुष्क	66
				16/1ए2बी	16/1ए2बी	निजी	मकान स्थल	75
				16/1ए2ए1	16/1ए2ए1	निजी	मकान स्थल	24
				16/1ए2ए2	16/1ए2ए2	निजी	मकान स्थल	15
				16/1ए2ए3	16/1ए2ए3	निजी	मकान स्थल	18
				16/1ए3ए	16/1ए3ए	निजी	मकान स्थल	31
				16/1ए3बी	16/1ए3बी	निजी	मकान स्थल	127
								मुरुगेसन पुत्र राजगोपाल वी. मुथावली पत्नी वेलु नानजुमल पत्नी चिन्नासामी स सांथामुर्ति पुत्र नाईनार 1. के. ए. दयालन 2. थीरुपति मुरुगेसन पुत्र राजगोपाल मुकामल पत्नी मुनुसामी वसन्ता पत्नी वरदाराज मुथावली पत्नी वेलु वसन्ता पत्नी वरदाराज मुकामल पत्नी मुनुसामी लक्ष्मी पत्नी मुरुगन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				16/1ए4ए	16/1ए4ए	निजी	मकान स्थल	35	लक्ष्मी पत्नी मुरुगन
				16/1ए4सी	16/1ए4सी	निजी	मकान स्थल	433	1. अमरावती पत्नी विरागाउंडर 2. वाली पत्नी सम्पत 3. मनीनैकम पुत्र कृष्णन 4. राजेश्वरी पत्नी मनीकम 5. थिरुपति पुत्र कुरुप्पा गाउंडर
				16/54	16/54	निजी	मकान स्थल	20	वसन्ता पत्नी वरदाराज
				26/1ए	26/1ए	सरकारी	सड़क	1450	सरकारी
				26/1बी1(भाग)	26/1बी1ए	निजी	शुष्क	45	नवीनकुमार पुत्र मुनीराजी
				26/1बी2(भाग)	26/1बी2ए	निजी	शुष्क	2	1. दुईसामी पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर 2. शनचिवान पुत्र कुन्थीली @ अन्नामलाई गाउंडर 3. पेरीयन् पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर
				26/2ए	26/2ए	सरकारी	सड़क	500	सरकारी
				26/2बी (भाग)	26/2बी1	निजी	शुष्क	14	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर
				28/1	28/1	सरकारी	सड़क	2450	सरकारी
				28/2ए	28/2ए	सरकारी	सड़क	100	सरकारी
				28/2बी	28/2बी	सरकारी	सड़क	600	सरकारी
				28/2सी2 (भाग)	28/2सी2ए	निजी	शुष्क	41	नवीनकुमार पुत्र मुनीराजी
				28/3 (भाग)	28/3ए	निजी	शुष्क	350	1. ठेक्कान पुत्र लक्ष्मन 2. पाली कुदाथन @ अन्नामलाई गाउंडर पुत्र लक्ष्मणन
					28/3सी	निजी	शुष्क	72	1. ठेक्कान पुत्र लक्ष्मन 2. पाली कुदाथन @ अन्नामलाई गाउंडर पुत्र लक्ष्मणन
				29/2	29/2	सरकारी	सड़क	1150	सरकारी
				30/1ए	30/1ए	सरकारी	सड़क	550	सरकारी
				30/1बी	30/1बी	सरकारी	सड़क	750	सरकारी
				30/1सी1ए(भाग)	30/4	निजी	शुष्क	430	1. विरप्पा चैति पुत्र राजप्पा चैति 2. पार्वती
					30/5	निजी	शुष्क	91	3. करीमनगलम को. ओ. सोसायटी
				30/1सी1बी (भाग)	30/6	निजी	शुष्क	300	1. मुरुगसन पुत्र पेरीयन्ना 2. मुथाप्पान पुत्र चिन्नाप्पान 3. पेरीयन् पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर 4. विरप्पा चैती पुत्र राजप्पा चैती
				30/1सी1सी(भाग)	30/7	निजी	शुष्क	230	1. पेरीयन् 2. सन्थील कुमार पुत्र चिन्नाप्पा गाउंडर
				30/1सी2(भाग)	30/1सी2बी	निजी	शुष्क	684	1. पेरीयन् 2. के. आर नटराजन
				30/3बी	30/3बी	निजी	शुष्क	300	थेक्कन पुत्र लक्ष्मणन
				38/1ए3(भाग)	38/1ए3बी	निजी	शुष्क	13	मुनीयामल पत्नी सुतान @ मेरी गाउंडर
				38/1ए4(भाग)	38/1ए4बी	निजी	शुष्क	918	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर
				38/1ए5 (भाग)	38/1ए5बी	निजी	शुष्क	5	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				39/1ए1(भाग)	39/1ए1बी	निजी	शुष्क	659	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर
				39/1ए 2 (भाग)	39/1ए2बी	निजी	शुष्क	1188	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				39/1सी1 (भाग)	39/1सी1ए	निजी	शुष्क	122	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				39/1सी2 (भाग)	39/1सी2बी	निजी	शुष्क	30	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर
				39/1सी3 (भाग)	39/1सी3ए	निजी	शुष्क	90	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				40/1ए	40/1ए	निजी	शुष्क	200	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				40/1बी (भाग)	40/1बी2	निजी	शुष्क	475	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				40/2	40/2	सरकारी	सड़क	5450	सरकारी
				40/3ए (भाग)	40/3ए1	निजी	शुष्क	253	वेलाप्पन पुत्र वेलाप्पा गाउंडर
				40/3बी (भाग)	30/3बी1	निजी	शुष्क	81	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				46/1	46/1	सरकारी	सड़क	200	सरकारी
				47/1ए (भाग)	47/1ए2	निजी	शुष्क	857	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				49/1सी (भाग)	49/1सी1	निजी	शुष्क	38	मरप्पन पुत्र चिन्नापाईयन @ नाला गाउंडर
				78/1ए (भाग)	78/1ए2	निजी	शुष्क	1366	मुनीयामल पत्नी वेक्टेसन चेती
				78/1सी (भाग)	78/1सी1	निजी	शुष्क	208	देवाराजुलु पुत्र विरप्पा चेतियार
				80/1ए (भाग)	80/1ए2	निजी	शुष्क	560	शशीकला पत्नी कृष्णन चेतियार
				80/1बी	80/1बी	सरकारी	सड़क	2250	सरकारी
				80/1सी (भाग)	80/1सी1	निजी	शुष्क	170	देवाराजुलु पुत्र विरप्पा चेतियार
				81 (भाग)	81/2	सरकारी	बट्टई	600	सरकारी
				83/1 (भाग)	83/1बी	निजी	शुष्क	1204	1. नागारजुन पुत्र नागाप्पा चेतियार 2. गोविन्दन चेति पुत्र रामीचेति
				83/12ए (भाग)	83/12ए1	निजी	शुष्क	8	यशोदा पत्नी रामासामी 2. कल्यानी पत्नी रामामुर्थि 3. सरकारी @ रामासामी पुत्र मुनीसामी
				83/4 (भाग)	83/4ए	निजी	शुष्क	6	रंगासामी
				83/3ई (भाग)	83/3ई 1	निजी	शुष्क	9	जी. राधना पत्नी गोपालाकृष्णन
				83/3एल(भाग)	83/3एल1	निजी	शुष्क	15	मरीमुथु पत्नी कात्ता
				83/3एन(भाग)	83/3एन1	निजी	शुष्क	6	रास्ते के ऊपर
				83/3ओ (भाग)	83/3ओ1	निजी	शुष्क	17	पेरुमायी पत्नी वेक्टेसन
				83/3यु (भाग)	83/3यु1	निजी	शुष्क	24	पी एस विजयलक्ष्मी पत्नी रविन्द्रन
				83/3वी1(भाग)	963/3वी1ए	निजी	शुष्क	5	रास्ते के ऊपर
				83/3डब्ल्यु	83/3डब्ल्यु1	निजी	शुष्क	20	मोटाईयन
				83/3ए1(भाग)	83/3ए1ए	निजी	शुष्क	5	रास्ते के ऊपर
				83/3ए4(भाग)	83/3ए4ए	निजी	मकान स्थल	25	के. आर नटराजन
				83/3ए5 (भाग)	83/3ए5ए	निजी	शुष्क	6	रास्ते के ऊपर
				83/3ए6 (भाग)	83/3ए6ए	निजी	शुष्क	26	ए पी पेरुमल
				90/2बी1 (भाग)	90/2बी1ए	निजी	शुष्क	270	नागारजुन पुत्र नागाप्पाचेतियार
				91/2ए (भाग)	91/2/ए2	निजी	शुष्क	994	नागारजुन पुत्र नागाप्पाचेतियार
				91/3सी (भाग)	91/3सी1	निजी	शुष्क	80	रामाचन्द्रियन पुत्र रामर
				94/1ए20ए(भाग)	94/39	निजी	शुष्क	454	1. वेक्टेसा चेति पुत्र पत्नी अप्पाईचेति 2. कालीवनी पत्नी वेदाप्पन 3. मनोरमा पत्नी लक्ष्मणन 4. के आर कात्ता पत्नी रामी चेति 5. लक्ष्मणन पुत्र मुथुसामी 6. मधु @ नंजा गाउंडर पुत्र नलागाउंडर 7. मुरुगामल पत्नी गणेशन 8. बी ए. अन्वेरखान पुत्र अजीस साहिब 9. के चन्द्रशेखरन पुत्र कृष्णाअय्यर 10. नलीयप्पा पुत्र पलानि गाउंडर 11. गणेशन 12. सेलवम पुत्र कुप्पन 13. के नागराज पुत्र कुप्पन 14. बाली चेति पुत्र पेथाना चेति 15. सी.एस बालासुब्रामनियम पुत्र श्रीनिवासन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								16. एम. कालीवनी पत्नी मुरुगेसन 17. के रमेश पुत्र कोन्डा अचारी 18. के चन्द्रा पत्नी जयापाल 19. गुलशेज पत्नी एपीस
				94/29बी1 (भाग)	94/40	निजी	शुष्क	855 <ol style="list-style-type: none"> 1. जी शेखर पुत्र गोपाल गाउंडर 2. शिवाराज पुत्र नागाप्पन 3. कालीवनी पत्नी मुरुगेसन 4. मुनीराजी पुत्र थिरुपति 5. ए. जी. दुरईसामी पुत्र पाली अप्पीचेति 6. देवीयानि 7. शिवारामकृष्णन पुत्र रामासामी 8. रंगासामी पुत्र मेरीमुथु 9. दास चेति पुत्र चिन्नाप्पा चेतियार 10. गुनेशकरण पुत्र गोपाल चेतियार 11. धनालक्ष्मी पत्नी मायाकानन 12. डी. नागेन्द्रियन 13. के. सी. अरुमुगम 14. के. सी. शक्तिमुर्ति 15. जयारामन पुत्र दुरईसामी 16. थिरुपति पुत्र मुरुगन 17. वेक्टासुब्रामणियन पुत्र गोविन्दन 18. कृष्णमल पुत्री नरसिमा अययार 19. मुथु गाउंडर 20. मरीन 21. अण्णुसामी पुत्र मुथु गाउंडर 22. वी रमेश पुत्र वेदावलम 23. सेलादुरई 24. के. जी. दुरईसामी
				94/29बी2 (भाग)	94/41	निजी	शुष्क	30 <ol style="list-style-type: none"> के. सी. शक्तिमुर्ति पुत्र के के चिन्नासामी
				94/29सी	94/29सी	निजी	शुष्क	100 <ol style="list-style-type: none"> डी नागेन्द्रन पुत्र देवीराजी अययार
				94/7 (भाग)	94/7बी	निजी	शुष्क	146 <ol style="list-style-type: none"> युन्नामलाई पत्नी पेरुमल
				94/8 (भाग)	94/8बी	निजी	शुष्क	53 <ol style="list-style-type: none"> रास्ते के ऊपर
				94/16 (भाग)	94/16बी	निजी	मकान स्थल	182 <ol style="list-style-type: none"> 1. एन. मधु @ नानजा गाउंडर 2. रामाचन्द्रन 3. कुमार के पुत्र नानजा गाउंडर
				94/33 (भाग)	94/33बी	निजी	शुष्क	9 <ol style="list-style-type: none"> बी. कालीयनी पत्नी वेदाप्पन
				95/1बी1बी (भाग)	95/30	निजी	मकान स्थल	27 <ol style="list-style-type: none"> एम. कान्था
				95/1बी1ए (भाग)	95/29	निजी	मकान स्थल	3 <ol style="list-style-type: none"> कान्था पत्नी मरीमुथु
				95/3 (भाग)	95/3ए	निजी	शुष्क	18 <ol style="list-style-type: none"> रास्ते के ऊपर
				95/14 (भाग)	95/14ए	निजी	मकान स्थल	106 <ol style="list-style-type: none"> एन वरदाराजुलु
				95/15 (भाग)	95/15ए	निजी	मकान स्थल	68 <ol style="list-style-type: none"> बी. उमाराजी.
				95/20 (भाग)	95/20ए	निजी	शुष्क	16 <ol style="list-style-type: none"> रास्ते के ऊपर
				95/26 (भाग)	95/26ए	निजी	मकान स्थल	61 <ol style="list-style-type: none"> सी. सोदेशवरी
				102/2ए (भाग)	102/2ए1	निजी	शुष्क	250 <ol style="list-style-type: none"> 1. रामामुर्ति पुत्र मुनुसामी चेति 2. परुसोथम पुत्र मुनुसामी चेति
				104/1ए (भाग)	104/1ए2	निजी	शुष्क	1101 <ol style="list-style-type: none"> 1. रामामुर्ति पुत्र मुनुसामी चेति 2. परुसोथम पुत्र मुनुसामी चेति
				104/1सी2 (भाग)	104/1सी2बी	निजी	शुष्क	142 <ol style="list-style-type: none"> मुथामल पत्नी राजामनीकम
				104/1सी1ए (भाग)	104/3	निजी	शुष्क	28 <ol style="list-style-type: none"> रास्ते के ऊपर
				104/1सी1बी (भाग)	104/4	निजी	शुष्क	77 <ol style="list-style-type: none"> शेखर पुत्र गोविन्दा नायडु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				104/1सी1सी (भाग)	104/5	निजी	शुष्क	76	गोरियामल पत्नी मुरुगेसन
				104/1सी3ए	104/1सी3ए	निजी	शुष्क	120	सेलवी पत्नी मुरुगेसन
				104/1सी3बी	104/1सी3बी	निजी	शुष्क	130	1. राधा पुत्र गोविन्दसामी 2. पेरीयन्नान पुत्र गोविन्दा गाउंडर
				104/1ई (भाग)	104/1ई 2	निजी	शुष्क	106	करीयन @ मुनुसामी पुत्र मुनीयन
				104/1बी4 (भाग)	104/1बी4बी	निजी	शुष्क	71	सी मनीकाम पुत्र चिन्नु चेतियार
				104/1बी5 (भाग)	104/1बी5बी	निजी	शुष्क	74	सवित्री पत्नी रामानाथन्
				104/1बी6 (भाग)	104/1बी6बी	निजी	शुष्क	28	करीयन @ मुनुसामी पुत्र मुनीयन
				104/1बी10(भाग)	104/1बी10बी	निजी	शुष्क	74	1. राधा पुत्र गोविन्दसामी 2. सुलोसना पत्नी नटेशन
				104/1बी11(भाग)	104/1बी11बी	निजी	शुष्क	75	शिवालिंगम पुत्र चिन्नु चेतियार
				104/2ए (भाग)	104/2ए2	निजी	शुष्क	20	रास्ते के ऊपर
				104/2डी (भाग)	104/2डी2	निजी	शुष्क	155	पेरीयासामी पुत्र चिन्नासामी
				104/2ई (भाग)	104/2ई 2	निजी	शुष्क	45	रास्ते के ऊपर
				104/2एफ	104/2एफ	निजी	शुष्क	35	सेलवम पुत्र नारायणन
				112/1ए (भाग)	112/1ए2	निजी	शुष्क	1207	1.रामामुथि पुत्र मुनुसामी चैति 2. परुसोधम पुत्र मुनुसामी चैति
				112/2 (भाग)	112/2बी	निजी	शुष्क	33	1.रामामुथि पुत्र मुनुसामी चैति 2. परुसोधम पुत्र मुनुसामी चैति
				113/1ए3बी(भाग)	113/3	निजी	शुष्क	1500	1. मुरुगेसन पुत्र सुन्दराम 2. विजयलक्ष्मी पत्नी सुरेश बाबु 3. अनथी पत्नी बक्तावासेलाम
				176/1 (भाग)	176/1बी	निजी	शुष्क	30	1.पेरुमल पुत्र रामासामी गाउंडर 2. कोनारी @ सुब्रामनी 3. गणेशन के पुत्र अयासामी गाउंडर
				176/3(भाग)	176/3ए	निजी	शुष्क	1700	मुथ्याई पत्नी रामासामी
				177/2ए(भाग)	177/2ए2	निजी	शुष्क	289	घनालक्ष्मीयामल पत्नी सुब्रामनी
				514 (भाग)	514/2	सरकारी	चारागाह	800	सरकारी
				515 (भाग)	515/2	सरकारी	चारागाह	1695	सरकारी
				516/1 (भाग)	516/1बी	निजी	शुष्क	435	राजेश्वरी पत्नी देवाराजी मिनोर राजाशेखरन गार्डियन के जी देवाराजन
				516/2	516/2	सरकारी	बट्टई	2400	सरकारी
				517/1 (भाग)	517/1बी	निजी	शुष्क	752	1.देवाराजन पुत्र गोविन्दसामी नायडु 2.सेलवी पत्नी जयापाल
				517/2	517/2	सरकारी	बट्टई	1750	सरकारी
				522/1	522/1	सरकारी	बट्टई	150	सरकारी
				522/2 (भाग)	522/2बी	निजी	शुष्क	87	1.देवाराजन पुत्र गोविन्दसामी नायडु 2. सेलवी पत्नी जयापाल
				523/1	523/1	सरकारी	बट्टई	1100	सरकारी
				523/2 (भाग)	523/2बी	निजी	शुष्क	737	1.के जी देवाराजन पुत्र गोविन्दसामी नायडु 2. जयापाल पुत्र गोविन्दसामी नायडु
				553 (भाग)	553/2	सरकारी	बट्टई	390	सरकारी
				554 (भाग)	554/2	निजी	शुष्क	2000	1. लक्ष्मणन पुत्र ईराप्पा चैति 2. हेमामतिनी पुत्री लक्ष्मणन
				555/1ए (भाग)	555/1ए2	निजी	शुष्क	326	1. लक्ष्मणन पुत्र ईराप्पा चैति 2. हेमामतिनी पुत्री लक्ष्मणन
				555/1ई (भाग)	555/1ई 2	निजी	शुष्क	231	1. चिन्नापायन 2. मुथुसामी पुत्र स्व. राजी 3. सालामल पत्नी स्व. चिन्नासामी राज्जी पुत्र पेरुमल गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				555/2(भाग)	555/2बी	निजी	शुष्क	226	1. लक्ष्मणन पुत्र ईराप्पा चैति 2. हेमामलिनी पुत्री लक्ष्मणन
				556/1(भाग)	556/1बी	निजी	शुष्क	130	1. गोपाल पुत्र कालानदि परिधि 2. आर्य गाउंडर पुत्र पेशीयान्न गाउंडर
				556/2(भाग)	556/2बी	निजी	शुष्क	141	1.आर्य गाउंडर पुत्र अनुमन्था गाउंडर 2.वेदीयाप्पन पुत्र अरीमुथु गाउंडर 3. अरुण (पुत्र) स्व. वेदीयाप्पन
				556/3 (भाग)	556/3बी	निजी	शुष्क	259	रंगासामी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				556/11 (भाग)	556/11बी	निजी	शुष्क	46	काशीया चैति पुत्र जेडियन
				557/9 (भाग)	557/9बी	निजी	शुष्क	82	काशीया चैति पुत्र जेडियन
				557/10(भाग)	557/10बी	निजी	शुष्क	146	चिन्नासामी पुत्र कुलुवायन @ पेरुमल
				557/12 (भाग)	557/12बी	निजी	शुष्क	137	चिन्नासामी पुत्र पेरुमल
				582/1बी	582/1बी	सरकारी	सड़क	800	सरकारी
				582/1 सी1	582/1सी1	सरकारी	सड़क	450	सरकारी
			(3)आदिलम	1/1ए (भाग)	1/1ए2	निजी	शुष्क	316	1. सीवाप्रकासम पुत्र करुपिया 2. जोथि, पत्नी सीवाप्रकासम
				1/1बी (भाग)	1/1बी2	निजी	शुष्क	58	सेलापन पुत्र रमनीकम
				1/2 (भाग)	1/4	सरकारी	वईक्कल	256	सरकारी
				1/3	1/3	सरकारी	रास्ता	800	सरकारी
				2/1 (भाग)	2/1बी	निजी	शुष्क	228	सेलापन पुत्र रमनीकम
				2/2	2/2	सरकारी	रास्ता	600	सरकारी
				3/1 (भाग)	3/1बी	निजी	शुष्क	205	सेनगोदा नेकर पुत्र वीरप्पा नेकर सेलापन पुत्र रमनीकम
				3/2	3/2	सरकारी	रास्ता	700	सरकारी
				5 (भाग)	5/2	निजी	शुष्क	1054	नागमल पुत्री वरदाप्पन
				6	6	सरकारी	रास्ता	12000	सरकारी
				7/1 (भाग)	7/1ए	निजी	नम	503	कालियामल पत्नी मुरुगना
				7/2 (भाग)	7/2	सरकारी	वईक्कल	248	सरकारी
				11/2 (भाग)	11/2	सरकारी	रास्ता	2248	सरकारी
				11/3	11/3	सरकारी	रास्ता	2050	सरकारी
				11/4 (भाग)	11/4ए	निजी	शुष्क	978	काशीविश्वनाथन पुत्र मुनुसामी चेट्टी सुगनाकुमारी पत्नी काशीविश्वनाथन
				12/1 (भाग)	12/1ए	निजी	शुष्क	2304	काशीविश्वनाथन पुत्र मुनुसामी चेट्टी सुगनाकुमारी पत्नी काशीविश्वनाथन
				12/2	12/2	सरकारी	बटाई	750	सरकारी
				13 (भाग)	13/1	सरकारी	जम्बुकुट्टई	4848	सरकारी
				230/2 (भाग)	230/2ए	निजी	नम	1970	चिन्नासामी पुत्र पेरुमल
				231 (भाग)	231/ 1	सरकारी	वईक्कल	682	सरकारी
			(4) डोग्नेनाहल्ली	16/1ए (भाग)	16/1ए1	निजी	शुष्क	14	सुब्रामनि पुत्र कालीप्पा गाउंडर
				16/2ए (भाग)	16/2ए1	निजी	शुष्क	954	1. मरी गाउंडर पुत्र अक्कु मारी 2. सेल्वाराज पुत्र चिन्नासामी गाउंडर 3. जया पत्नी पेरियनन 4. थिरुपथि पुत्र रमासामी 5. राजामनि पुत्र मरिप्पा गाउंडर 6.पलानीयामल पत्नी कंदासामी
				16/2सी (भाग)	16/2सी1	निजी	शुष्क	2429	पलानीयप्पा गाउंडर पुत्र वियापुरी गाउंडर
				17	17	सरकारी	सड़क	1900	राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह
				19	19	सरकारी	सड़क	8800	राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				18/1ए (भाग)	18/1ए2	निजी	शुष्क	2150	1. चिन्नापिल्लै @ वेलियागाउंडर पुत्र धिदन @ वियापुरी 2. मादेश्वरन 3. चिन्नासामी 4. सक्थिवेल 5. गोविंदसामी 6. मादेश के पुत्र चिन्नापिल्लै @ वेलियागाउंडर 7. मरिमुथामल पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर
				18/1एफ (भाग)	18/1एफ2	निजी	शुष्क	51	1. सेवाथन @ वेलायान पुत्र पलानी 2. माथु पुत्र सेवाथन @ वेलायान
				18/1जी (भाग)	18/1जी2	निजी	शुष्क	562	1. माइनर मनि 2. इदुम्बन के पुत्र कंदासामी सुरतियन @ अर्जुनन पुत्र पलानी
				18/1एच	18/1एच	निजी	शुष्क	650	सुरतियन @ अर्जुनन पुत्र पलानी
				18/1जे (भाग)	18/1जे2	निजी	शुष्क	420	1. माइनर मनि 2. इदुम्बन के पुत्र कंदासामी 3. माथु पुत्र सेवाथन @ वेलाया गाउंडर धिदन
				18/1के	18/1के	निजी	शुष्क	350	1. चिन्नापिल्लै @ वेलाया गाउंडर पुत्र धिदन 2. उमायन @ मारी 3. माइनर मनि 4. इदुम्बन 5. अर्जुनन 6. सेवाथन 7. मादेश्वरन 8. चिन्नासामी 9. सक्थिवेल 10. गोविंदसामी 11. मादेश 12. मरिमुथामल पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर 13. मधु पुत्र सेवाथन
				18/1एल (भाग)	18/1एल2	निजी	शुष्क	424	1. मरिमुथु पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलियन 2. मुथुसामी 3. रमन 4. रवि 5. सेतु के पुत्र भीमन 6. भीमन पुत्र अकुमरी गाउंडर
				18/1एम (भाग)	18/1एम2	निजी	शुष्क	577	1. पलानी पुत्र अर्जुनन 2. अर्जुनन पुत्र पलानी
				18/1पी (भाग)	18/1पी2	निजी	शुष्क	132	1. कंदासामी 2. सेवाथन @ वेलायन 3. चिन्नापिल्लै @ वेलाया गाउंडर पुत्र धिदन 4. मनि 5. मधु पुत्र सेवाथन @ वेलाय गाउंडर 6. मादेश्वरन 7. चिन्नासामी 8. सक्थिवेल 9. गोविंदसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10. मादेश के पुत्र चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर 11. मारीमुथामल पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर
				18/1एस (भाग)	18/1एस 2	निजी	शुष्क	372 1. पलानी पुत्र अर्जुनन 2. ईदुम्बन 3. मनि के पुत्र कंदासामी 4. मुथुसामी पुत्र भीमन 5. मारीमुथामल पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर
				18/1एस (भाग)	18/1एस	निजी	शुष्क	1063 1. चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर पुत्र धिंदन @ वियापुरी 2. चिन्नासामी 3. सक्थिवेल 4. गोविंदसामी 5. मदेश 6. मादेशवरन के पुत्र चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर 7. मरिमुथामल पत्नी चिन्नापिल्लै @ वेलिया गाउंडर
				18/1टी (भाग)	18/1टी	निजी	शुष्क	1010 उमायन @ मारी पुत्र धिंदन @ वियापुरी
				20/ 2एस (भाग)	20/2एस	निजी	शुष्क	472 1. कला पत्नी शंकर 2. करपागावली पत्नी नटराजन
				20/ 2एस (भाग)	20/2एस	निजी	शुष्क	993 1. राजा गाउंडर पुत्र मरुप्पा गाउंडर
				20/2बी (भाग)	20/2बी1	निजी	शुष्क	366 1. कमलमल पत्नी अरुमुगा अचारी 2. राजागोपाल पुत्र अरुमुगा अचारी
			(5) कलप्पन्नाहल्ली	47/1 (भाग)	47/1बी	निजी	शुष्क	2080 1. राजागोपाल पुत्र अरुमुगा अचारी
				47/2एस (भाग)	47/2एस	निजी	शुष्क	1300 1. सेल्वम पुत्र धीरुमलाई गाउंडर
				47/2बी (भाग)	47/2बी2	निजी	शुष्क	2575 1. चिन्नामल पत्नी अन्नामलाई 2. कंदासामी पुत्र मरिमुथु गाउंडर 3. पलानीमुथु पुत्र अन्नामलाई 4. मुथुसामी पुत्र अन्नामलाई 5. पाचीयामल पुत्री अन्नामलाई
	2. धर्मापुरी	(1) कोननगिनईकनहल्ली		11/1बी (भाग)	11/1बी2	निजी	शुष्क	345 1. रथीनम पुत्र कौंधरी गाउंडर 2. लक्ष्मीमल पत्नी रथीनम 3. मंगामल पत्नी पुनुसामी 4. पुनुसामी पुत्र नाडुपियन @ मुनुसामी 5. जानगी पुत्री नाडुपियन @ मुनुसामी 6. मुनुसामी
				12/3 (भाग)	12/ 3बी	निजी	शुष्क	681 1. रथीनम पुत्र कौंधरी गाउंडर 2. लक्ष्मीमल पत्नी रथीनम 3. मंगामल पत्नी पुनुसामी 4. पुनुसामी पुत्र नाडुपियन @ मुनुसामी 5. जानगी पुत्री नाडुपियन @ मुनुसामी 6. मुनुसामी
				14/1एस (भाग)	14/ 1एस	निजी	शुष्क	252 सांथी पत्नी उदयकुमार
				14/1बी (भाग)	14/1बी2	निजी	शुष्क	1175 1. रथीनम पुत्र कौंधरी गाउंडर 2. लक्ष्मीमल पत्नी रथीनम 3. मंगामल पत्नी पुनुसामी 4. पुनुसामी पुत्र नाडुपियन @ मुनुसामी 5. जानगी पुत्री नाडुपियन @ मुनुसामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6. मुनुसामी 7. स्थना पत्नी शेखर 8. वैक्तामनि पुत्र लक्ष्मना गाउंडर
				15/1 (भाग)	15/ 1बी	निजी	शुष्क	455 सांथी पत्नी उदयकुमार
				17/1बी (भाग)	17/1बी2	निजी	शुष्क	240 1. वैक्ताजलम पुत्र रामाचारी 2. सरस्वती पत्नी वैक्ताजलम
				17/1ए2 (भाग)	17/ 1ए2बी	निजी	शुष्क	750 1. सांथानम पुत्र रघुनाथन 2. रंगाराज पुत्र रघुनाथन
				17/1ए1 (भाग)	17/ 1ए1बी	निजी	शुष्क	160 गोविंदन पुत्र मुनिया गाउंडर
				17/2	17/2	सरकारी	वारी	400 सरकारी
				18/1बी2 (भाग)	18/ 1बी2बी	निजी	शुष्क	465 1. वैक्ताजलम पुत्र रामाचारी 2. सरस्वती पत्नी वैक्ताजलम
				18/2	18/2	सरकारी	वारी	350 सरकारी
				20/1ए1 (भाग)	20/1ए1बी	निजी	शुष्क	517 1. मरिमुथु चेरमैन सीवामनि सपीनिंग मिल 2. एस. पी. मरिमुथु
				20/1ए2 (भाग)	20/ 1ए2बी	निजी	शुष्क	195 1. रथीनम पुत्र कौंधरी गाउंडर 2. कंदासामी गाउंडर पुत्र रथीनम 3. पलानीसामी पुत्र रथीनम 4. माधामल पत्नी थंगावेल 5. अंजलादेदी पत्नी आधीमुलम 6. सारवा पत्नी रंगाराजी 7. इंदिरा पत्नी पुष्पागरन 8. लक्ष्मी पत्नी रथीनम 9. लक्ष्मी पत्नी कंदासामी
				20/1ए3 (भाग)	20/ 1ए3बी	निजी	शुष्क	570 मुरुगेसन मेनेजिंग डायरेक्टर सीवामनि सपीनिंग मिल धरमापुरी
				20/1बी	20/1बी	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का हासिया	950 सरकारी
				20/2	20/2	सरकारी	वारी	950 सरकारी
				21	21	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का हासिया	5400 सरकारी
				22/1	22/1	सरकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का हासिया	1950 सरकारी
				22/2बी (भाग)	22/ 2बी1	निजी	शुष्क	970 1. मुनुसामी पुत्र वेनीटापन 2. अरुनाचलम पुत्र वेनीटापन 3. राधा पत्नी मुगुंथन 4. अरुनाचलम पुत्र मुनुसामी नायडू
				23/1	23/ 1	निजी	शुष्क	1700 1. चेनामल पत्नी दीरावेंदरन @ करिया गाउंडर 2. कांडामल पत्नी चेनप्पा नायडू 3. एम. समयाराजी 4. अध्यक्ष कृषि कोओपरेटिव बैंक 5. राधा पत्नी मुगुंथन 6. थंगावेल 7. स्पेशल आफिसर कृषि कोओपरेटिव बैंक 8. बागीयम पत्नी रंगानाथन
				23/2 (भाग)	23/ 2ए	निजी	शुष्क	427 1. कंचन पत्नी बुधाल 2. अध्यक्ष कृषि कोओपरेटिव बैंक 3. एम. समयाराजी 4. स्पेशल आफिसर कृषि कोओपरेटिव बैंक 5. राधा पत्नी मुगुंथन 6. स्पेशल आफिसर कृषि कोओपरेटिव बैंक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				23/3 (भाग)	23/3ए	निजी	शुष्क	942	धंगवेल पुत्र मुनिष्ठा चरीतियार
				23/4 (भाग)	23/4ए	निजी	शुष्क	277	1. कंचन पत्नी बुवाल 2. अघ्यक्ष कृषि कोओपरेटिव बैंक 3. एम. समयराजी 4. स्पेशल आफिसर कृषि कोओपरेटिव बैंक
				23/5 (भाग)	23/5ए	निजी	शुष्क	210	1. कधामल पत्नी चेनप्पा नायडू 2. बागीयम पत्नी रंगानाथन
				24/1	24/1	सरकारी	सड़क	1400	सरकारी
				24/2	24/2	सरकारी	पंचायती सड़क	250	सरकारी
				24/3 (भाग)	24/3	सरकारी	सड़क	590	सरकारी
				25/ए1 (भाग)	25/ ए1ए	निजी	शुष्क	150	1.जानगी पत्नी गोविंदन 2. मुनुसामी पुत्र गोविंदन
				25/ए2 (भाग)	25/ ए2ए	निजी	शुष्क	30	1.जानगी पत्नी गोविंदन 2. मुनुसामी पुत्र गोविंदन
				25/बी (भाग)	25/ बी	सरकारी	पंचायती सड़क	50	सरकारी
				25/सी1 (भाग)	25/ सी1ए	निजी	शुष्क	10	1. नंदा पत्नी लक्ष्मनन 2. मधु पुत्र लक्ष्मनन गाउंडर 3. गनेशन पुत्र मधु गाउंडर 4.कावेरीमल पत्नी गनेशन 5. मायिला पत्नी राजा 6. राजा पुत्र माथु गाउंडर
				25/सी2 (भाग)	25/ सी2ए	निजी	शुष्क	300	1. नंदा पत्नी लक्ष्मनन 2. मधु पुत्र लक्ष्मनन गाउंडर 3. गनेशन पुत्र मधु गाउंडर 4.कावेरीमल पत्नी गनेशन 5. मायिला पत्नी राजा 6. नटरासन पुत्र गनेशन
				26/1 (भाग)	26/1ए	निजी	शुष्क	772	1.जानगी पत्नी गोविंदन 2. मुनुसामी पुत्र गोविंदन 3. नटरासन पुत्र गनेशन
				27/1 (भाग)	27/ 1ए	निजी	शुष्क	1400	जानगी पत्नी गोविंदन
				28 (भाग)	28/1	निजी	शुष्क	1050	सेलपा गाउंडर
			(2) नाडुहल्ली	10/1बी (भाग)	10/ 1बी2	निजी	नम	131	सुरयामूर्ति पुत्र मुरुगेसन (माइनर) गार्डियन मुरुगेसन
				11/3 (भाग)	11/3बी	निजी	शुष्क	2864	सोलाईराज पुत्र पेरुमल गाउंडर
				11/4 (भाग)	11/4बी	निजी	शुष्क	1040	1. वैक्कारमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. देवेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर
				11/5 (भाग)	11/5बी	निजी	शुष्क	142	1. राजेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. देवेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर
				11/6	11/6	निजी	शुष्क	200	देवेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर
				11/7	11/7	निजी	शुष्क	600	1.मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर 2.वैक्कारमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 3. राजेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 4. देवेंद्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 5. सोलाईराज पुत्र पेरुमल गाउंडर 6. कन्नुपायन पुत्र पेरुमल गाउंडर
				11/8 (भाग)	11/ 8ए	निजी	शुष्क	1420	मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				11/10 (भाग)	11/10ए	निजी	शुष्क	1175	पेरियासामी पुत्र वेदी गाउंडर
				12/1 (भाग)	12/1ए	निजी	शुष्क	410	मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				12/4 (भाग)	12/4ए	निजी	शुष्क	3	1. वैक्कारमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर
				13/1ए (भाग)	13/1ए2	निजी	शुष्क	1124	1. मरिप्पन पुत्र सामीकानु 2. सामीकानु पुत्र मरिप्पन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				13/1बी (भाग)	13/1बी2	निजी	शुष्क	2982	1. वैक्टासमन पुत्र सामीकानु 2. सामीकानु पुत्र मरिष्यन
				13/2ए1	13/2ए1	निजी	शुष्क	50	मुनिष्यन पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी
				13/2ए2	13/2ए2	निजी	शुष्क	50	पेरुमल पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी
				13/2ए3 (भाग)	13/2ए3ए	निजी	शुष्क	55	कोना गाउंडर पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी
				13/2बी (भाग)	13/ 3	सरकारी	वारी	880	सरकारी
				14/3बी (भाग)	14/3बी2	निजी	शुष्क	760	1. पलानी पुत्र लक्ष्मनन 2. शेखर पुत्र मुनुसामी
				14/2ई (भाग)	14/ 2ई 2	निजी	शुष्क	17	1. पलानी पुत्र लक्ष्मनन 2. शेखर पुत्र मुनुसामी
				17/1बी (भाग)	17/1बी2	निजी	शुष्क	218	1. मुनुसामी पुत्र काली गाउंडर 2. जयाकोडी पुत्री मनिष्यन 3. वनिथा (गार्डियन मदर जयाकोडी) 4. कुट्टी पुत्र मुनुसामी
				17/1सी (भाग)	17/1सी2	निजी	शुष्क	10	1. मुनुसामी पुत्र काली गाउंडर 2. वेगटारमन पुत्र काली गाउंडर
				17/1ई 1 (भाग)	17/1ई 1ए	निजी	शुष्क	840	1. मनिष्यन पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी 2. पेरुमा पत्नी मुनिष्यन
				17/1ई 2 (भाग)	17/1ई 2ए	निजी	शुष्क	165	1. सम्पथ पुत्र मुनिष्यन 2. पेरुमा पत्नी मुनिष्यन
				17/1एफ (भाग)	17/1एफ1	निजी	शुष्क	490	पेरुमल पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी
				17/1जी	17/1जी1	निजी	शुष्क	120	1. कोना गाउंडर पुत्र सुरुतियन @ मुनुसामी 2. सामीकानु पुत्र मरिष्यन
				20/1ए1 (भाग)	20/1ए1बी	निजी	शुष्क	2300	1. सजा पुत्र पेरुमल 2. पचियामल पत्नी मुनुसामी
				20/1बी1ए (भाग)	20/3	निजी	शुष्क	1600	1. पच्चा उदायर @ गोविंदा उदायर पुत्र थोपाला उदायर 2. मुर्थि पुत्र पच्चासुथु उदायर
				21/1ए (भाग)	21/1ए1	निजी	शुष्क	1783	1. धनशेखरन पुत्र अरुनाचलम 2. कार्तिकेयन पुत्र अरुनाचलम 3. बुधालन पुत्र मरिष्यन
				21/1बी (भाग)	21/1बी1	निजी	शुष्क	330	1. पच्चा उदायर @ गोविंदा उदायर पुत्र थोपाला उदायर 2. पच्चासुथु उदायर पुत्र थोपाला उदायर 3. धनशेखरन पुत्र अरुनाचलम 4. एन. जयालक्ष्मी पत्नी एम. पी. नटराजन 5. कार्तिकेयन पुत्र अरुनाचलम 6. मुर्थि पुत्र पच्चासुथु उदायर 7. बुधालन पुत्र मरिष्यन
				21/1ई (भाग)	21/1ई 1	निजी	शुष्क	3	1.चिन्नाकानु @ पेरुमल पुत्र वधालन @ बुधाल गाउंडर 2. पुनिथा पत्नी चिन्नासामी
				35/1बी (भाग)	35/1बी1	निजी	शुष्क	5	चिन्नाकानु @ पेरुमल पुत्र वधालन @ बुधाल गाउंडर
				73/6 (भाग)	73/ 6बी	निजी	शुष्क	3	1. मरिष्यन पुत्र सामीकानु 2. सेदाधन पुत्र गोविंदन 3. मुनुसामी पुत्र कोना गाउंडर
				74/2 (भाग)	74/2बी	निजी	शुष्क	1108	1. वरघान पुत्र चिन्ना बुधाल गाउंडर 2. वरघान पुत्र चिन्ना बुधाल गाउंडर
				74/5 (भाग)	74/ 5बी	निजी	शुष्क	1250	गोविंदसामी पुत्र अन्नामलाई उदायर
				76/2बी (भाग)	76/2बी2	निजी	शुष्क	108	1. चिन्ना मारुपेदियन पुत्र कूजी गाउंडर 2. मनि पुत्र चिन्नासामी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				85/4 (भाग)	85/ 4बी	निजी	शुष्क	2160	1. चिन्ना मारुवेदियन पुत्र कुंजी गाउंडर 2. अरीवाजागन पुत्र पेरियासामी 3. मरिप्पन पुत्र पेरियासामी 4. पेरुमल पुत्र चिन्ना मारुवेदियन @ मरिप्पा गाउंडर
				86/1	86/ 1	निजी	शुष्क	2450	1. चिन्ना मारुवेदियन पुत्र कुंजी गाउंडर 2. अरीवाजागन पुत्र पेरियासामी 3. मरिप्पन पुत्र पेरियासामी 4. पेरुमल पुत्र चिन्ना मारुवेदियन @ मरिप्पा गाउंडर
				86/2ए (भाग)	86/ 2ए1	निजी	शुष्क	1375	1. कुमारसामी पुत्र कुमारसामी 2. सुंदरामोगन पुत्र कुमारसामी
				86/2बी (भाग)	86/ 2बी1	निजी	शुष्क	218	चिन्नासामी पुत्र सेवाई
				87/1बी (भाग)	87/ 1बी2	निजी	शुष्क	32	1. बराधान पुत्र चिन्ना बुधाला गाउंडर 2. बराधान पुत्र चिन्ना बुधाला गाउंडर
				87/1सी	87/ 1सी	निजी	शुष्क	750	1. बराधान पुत्र कुंजी गाउंडर 2. अरीवाजागन पुत्र पेरियासामी 3. मरिप्पन पुत्र पेरियासामी 4. पेरुमल पुत्र चिन्ना मारुवेदियन @ मरिप्पा गाउंडर
				87/2ए (भाग)	87/ 2ए1	निजी	शुष्क	100	1. कुमारसामी पुत्र कुमारसामी 2. सुंदरामोगन पुत्र कुमारसामी
				87/2डी (भाग)	87/2डी1	निजी	शुष्क	44	1.कुमारसामी पुत्र ओ. बधालन @ बुधाला गाउंडर 2. चिन्नासामी पुत्र सेवाई 3. कीली पुत्र सेवाई
				88 (भाग)	88/2	सरकारी	सड़क	3800	सरकारी
				91/1 (भाग)	91/ 1ए	निजी	शुष्क	250	गोपाल पुत्र ईलायापेरुमल
				91/2 (भाग)	91/2ए	निजी	शुष्क	1560	गोपाल पुत्र ईलायापेरुमल
				94/1 (भाग)	94/ 1बी	निजी	शुष्क	186	मनि पुत्र माघन
				94/2 (भाग)	94/2बी	निजी	शुष्क	633	चिन्नादुरई पुत्र कुप्पा गाउंडर
				94/3 (भाग)	94/ 3बी	निजी	शुष्क	1395	1. लक्ष्मनन पुत्र मोलाई गाउंडर 2. मधु पुत्र लक्ष्मनन
				94/4 (भाग)	94/4ए	निजी	शुष्क	1266	1. मोसल पुत्र मोलाई गाउंडर 2. रवि पुत्र गोविंदन
				94/5 (भाग)	94/5ए	निजी	शुष्क	823	1. मुनिया गाउंडर पुत्र रामा गाउंडर 2. पेरियासामी पुत्र मुनिया गाउंडर
				95/1बी (भाग)	95/ 1बी1	निजी	शुष्क	2273	1. कानन पुत्र कोनाकलन @ पेरुमल 2. गनेशन पुत्र कानन 3. बुद्धा @ कुप्पा गाउंडर पुत्र कानन
				95/1सी (भाग)	95/1सी1	निजी	शुष्क	23	रमेश पुत्र कृष्णन
				96/1ए (भाग)	96/ 1ए2	निजी	शुष्क	1080	1. मुनिया गाउंडर पुत्र कुप्पा गाउंडर 2. पेरुमल पुत्र मोलाया गाउंडर @ वागुथन
				96/1बी (भाग)	96/ 1बी2	निजी	शुष्क	1405	चिन्नाकानु पुत्र कुप्पा गाउंडर
				96/2ए (भाग)	96/ 2ए2	निजी	शुष्क	2500	1. मुनिया गाउंडर पुत्र कुप्पा गाउंडर 2. गोविंदराज पुत्र मोटन @ अन्नामलाई
				96/3सी (भाग)	96/ 3सी2	निजी	शुष्क	863	धवामनि पुत्र रामा गाउंडर
				96/3डी (भाग)	96/ 3डी1	निजी	शुष्क	1083	1. कानन पुत्र कुप्पु गाउंडर 2. गनेशन पुत्र कानन
				96/3ई (भाग)	96/ 3ई 1	निजी	शुष्क	65	सावित्री पत्नी स्थीनावेल
				100/3बी (भाग)	100/3बी3बी	निजी	शुष्क	116	सीवाजी पुत्र गंगा गाउंडर
					100/3बी4बी	निजी	शुष्क	1700	1. गंगन पुत्र गंगन 2. गंगन पुत्र मधु गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				100/3सी	100/ 3सी	निजी	शुष्क	1400	गोपाल पुत्र ईयापेरुमल
				100/3डी	100/3डी	निजी	शुष्क	700	गोपाल पुत्र ईयापेरुमल
			(3)हले घर्मापुरी	5/1 (भाग)	5/1ए	निजी	नम	1830	1. पट्टु @ पचाई उदायर पुत्र कुम्पु उदायर 2. सुब्रामनि पुत्र पट्टु @ पचाई उदायर
				5/2ए (भाग)	5/2ए1	निजी	नम	1	पुनगोडी पत्नी वजीराम
				6 (भाग)	6/2	निजी	नम	2250	1. मुथप्पा चेट्टी पुत्र नंजुदा चेट्टी 2. पीराकाश पुत्र मुथप्पा चैथि 3. मोहन पुत्र मुथप्पा चैथि 4. लोगु पुत्र मुथप्पा चैथि
				11/1 (भाग)	11/1ए	निजी	नम	360	1. राजा उदायर पुत्र अपावु उदायर 2. पट्टी @ पचाई उदायर पुत्र कुम्पा उदायर 3. उन्नामलाई पत्नी गनेशन 4. मोहन पुत्र गनेशा उदायर 5. पुनगोडी पत्नी बाजीराम 6. मोहन पुत्र राजा उदायर 7. अनबालगन पुत्र राजा उदायर 8. रथिनासामी पुत्र राजा उदायर 9. बास्कर पुत्र राजा उदायर 10. सुब्रामनि पुत्र पट्टु @ पचाई उदायर
				11/2 (भाग)	11/2ए	निजी	नम	40	1. पट्टु @ पचाई उदायर पुत्र कुम्पु उदायर 2. सुब्रामनि पुत्र पट्टु @ पचाई उदायर
				10 (भाग)	10/1	निजी	नम	1500	गननशेखरन पुत्र सीवालिंगम
				250/1 (भाग)	250/1बी	निजी	नम	1100	1. सीथामल पत्नी मुथप्पा चैथियार 2. पीराकाश पुत्र मुथप्पा चैथि 3. मोगन पुत्र मुथप्पा चैथि 4. लोगु पुत्र मुथप्पा चैथि
				250/2	250/ 2	निजी	नम	850	गननशेखरन पुत्र सीवालिंगम
				9 (भाग)	9/2	निजी	नम	3600	1. सीथामल पत्नी मुथप्पा चैथियार 2. पीराकाश पुत्र मुथप्पा चैथि 3. मोगन पुत्र मुथप्पा चैथि 4. लोगु पुत्र मुथप्पा चैथि
				30 (भाग)	30/1	निजी	नम	1600	धंगाराजी पुत्र वेक्टरमन
				254/1	254/ 1	निजी	नम	750	धंगाराजी पुत्र वेक्टरमन
				254/2ए (भाग)	254/2ए2	निजी	नम	303	1.देवेन्द्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. राजा पुत्र गोविंदा गाउंडर
				254/2बी (भाग)	254/2बी2	निजी	नम	380	1. कानु पायन पुत्र पेरुमल गाउंडर 2. सोलाराज पुत्र पेरुमल गाउंडर 3. मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर 4. वेक्टरमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 5.देवेन्द्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 6. राजा पुत्र गोविंदा गाउंडर
				255/2 (भाग)	255/2बी	निजी	नम	1	1. कानु पायन पुत्र पेरुमल गाउंडर 2. राजा पुत्र गोविंदा गाउंडर
				31/1 (भाग)	31/1बी	निजी	शुष्क	1600	थीरुनावुकरसु पुत्र के. एस. जगादेसा उदायर
				31/2 (भाग)	31/2बी	निजी	शुष्क	960	कुट्टी @ बुथालन पुत्र बुथाला गाउंडर
				31/3 (भाग)	31/3बी	निजी	शुष्क	2127	वेलाकरन @ पेरुमल पुत्र मियान @ मुनिया गाउंडर
				31/4 (भाग)	31/4ए	निजी	शुष्क	1240	वेदिप्पन पुत्र वेरिया वेदिप्पन
				31/5 (भाग)	31/ 5ए	निजी	शुष्क	237	कुट्टी @ बुथालन पुत्र बुथाला गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				29/1ए	29/ 1ए	निजी	शुष्क	1000	1. वैक्तारमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. थंगाराज पुत्र वैक्तारमन	
				29/1बी (भाग)	29/ 1बी1	निजी	शुष्क	691	1. राजा पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. थंगाराज पुत्र वैक्तारमन	
				29/1सी (भाग)	29/1सी1	निजी	शुष्क	530	1.देवेन्द्रन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. थंगाराज पुत्र वैक्तारमन	
				29/1डी (भाग)	29/ 1डी1	निजी	शुष्क	480	1.मुनुसामी पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. थंगाराज पुत्र वैक्तारमन	
				29/1ई (भाग)	29/ 1ई 1	निजी	शुष्क	389	गोविंदन पुत्र मुनिया गाउंडर	
				29/2	29/2	निजी	नम	450	1. वैक्तारमन पुत्र गोविंदा गाउंडर 2. थंगाराज पुत्र वैक्तारमन	
				28/2	28/ 2	निजी	नम	200	पेलाकरन @ पेरुमल पुत्र मियान @ मुनिया गाउंडर	
			(4)धर्मापुरी टाउन	16/7 (भाग)	16/7ए	निजी	शुष्क	1219	1. पेरुमल पुत्र कानु गाउंडर 2. गोविंदसामी पुत्र पेरुमल	
			(5) वेल्लेगोन्दन - पलायम	612 (भाग)	612/2	सरकारी	ओनई	872	सरकारी	
				619/1 (भाग)	619/1ए	निजी	शुष्क	3850	1. पांडु रंगन पुत्र इलापा रेडडी 2. वैक्ताशन पुत्र इलापा रेडडी 3. पेरुमल पुत्र कुप्पा गाउंडर	
619/1बी1	निजी	शुष्क			655	1. अरुमुगम पुत्र रामा गाउंडर 2. पलानीमल पत्नी अरुमुगम				
620/4 (भाग)	620/4बी	निजी		शुष्क	714	रंगामल पत्नी चिन्नया रेडडी				
				621/1 (भाग)	621/1बी	निजी	शुष्क	1242	1. गो. वे. सामी पुत्र नरसिम्हारेडडी 2. काघन पुत्र कुपुसामीरेडडी	
				621/2 (भाग)	621/ 2बी	निजी	शुष्क	2036	गोविंदन पुत्र वैगटारेडडी	
				621/3 (भाग)	621/ 3बी2	निजी	शुष्क	3160	1. गोविंदमल पत्नी पुरुशोत्तम 2. नंथाकुमार पुत्र पुरुशोत्तम	
				623/1 (भाग)	623/1बी	निजी	शुष्क	1338	मरिप्पा गाउंडर पुत्र पेशीधनप्पा गाउंडर	
				623/3ए (भाग)	623/3ए2	निजी	शुष्क	300	1. गोविंदसामी पुत्र नरसिम्हाचेट्टी 2. चिन्नासामी पुत्र सिद्ध रेडडी 3. मादारेडडी पुत्र वीशारेडडी 4. नरसिम्हारेडडी पुत्र चिन्नासामीरेडडी	
				623/3बी (भाग)	623/3बी2	निजी	शुष्क	797	गोपाल पुत्र करियन @ पेरुमल	
				623/3सी (भाग)	623/3सी1	निजी	शुष्क	850	वेडिदेल पुत्र जंदया गाउंडर	
				624/1 (भाग)	624/1ए	निजी	शुष्क	530	1. जयासीलन पुत्र वैक्ताशन 2. सुन्दम पुत्र वैक्ताशन	
				624/4	624/4	निजी	शुष्क	150	नरसिम्हारेडडी पुत्र चिन्नासामीरेडडी	
				626/1 (भाग)	626/ 1ए	निजी	शुष्क	1410	मुरुगन पुत्र राजी	
				626/3 (भाग)	626/3बी	निजी	शुष्क	1790	शानमुगम पुत्र सुब्रामनि	
				645 (भाग)	645/1	निजी	शुष्क	3628	1. राजी पुत्र अरुमुगम 2. पोनुसामी पुत्र मेरी गाउंडर	
				647/1 (भाग)	647/1ए	निजी	शुष्क	1485	सुब्रामनि @ सिगारम पुत्र मरिमुथु	
				647/2 (भाग)	647/ 2ए	निजी	शुष्क	2183	1. शानमुगम पुत्र सुब्रामनि 2. सुब्रामनि @ सिगारम पुत्र मरिमुथु	
				652/1 (भाग)	652/1बी	निजी	शुष्क	1250	1. जयासीलन पुत्र वैक्ताशन 2. सुन्दम पुत्र वैक्ताशन	
				652/2 (भाग)	652/2बी	निजी	शुष्क	980	1. सुलोचना पुत्र वैक्ता रेडडी 2. सुजाता पत्नी पदमानाबन	
				652/3 (भाग)	652/3ए2	निजी	शुष्क	1200	नरसिम्हारेडडी पुत्र चिन्नासामीरेडडी	
					652/3बी	निजी	शुष्क	50	वेन्नारेडडी पुत्र वैक्तारेडडी	
				(6) विरुपाक्षीपुरम	492/1	492/1	निजी	शुष्क	1300	मालकुटियन @ वैक्तारमन पुत्र चाडु करियन
					492/2 (भाग)	492/2बी	निजी	शुष्क	8350	1. मुनिअप्पा गाउंडर पुत्र पेरुमल गाउंडर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								2. धनपाल पुत्र मुनिअप्पा गाउँडर 3. गोविदासामी पुत्र मुनिअप्पा गाउँडर 4. मधियान पुत्र नागप्पा गाउँडर
				492/3 (भाग)	492/ 3ए	निजी	शुष्क	481 1. रुकामल पत्नी वैक्टाप्पा रेडडी 2. मुनियामल पत्नी जेयाबल 3. अमुथा पत्नी सियाबालन
				494/1 (भाग)	494/1बी	निजी	शुष्क	1751 1. कालियामल पत्नी कुजी @ रामासामी रेडडी 2. कृष्णामूर्ति पुत्र @ रामासामी रेडडी 3. गोपाल पुत्र @ रामासामी रेडडी
				494/2 (भाग)	494/2बी	निजी	शुष्क	1691 लक्ष्मीमल पत्नी कुपुसामी रेडडी
				494/3 (भाग)	494/3बी	निजी	शुष्क	791 1. ओबी रेडडी पुत्र वेरा रेडडी 2. गोपाल पुत्र रंगा गाउँडर
				494/4 (भाग)	494/4बी	निजी	शुष्क	809 मदा रेडडी पुत्र वीरा रेडडी
				497/1 (भाग)	497/ 1बी	निजी	शुष्क	1377 1. गोपाल पुत्र ओबी रेडडी 2. लक्ष्मी पत्नी गोपाल 3. मुनिराज पुत्र गोपाल
				497/2 (भाग)	497/2बी	निजी	शुष्क	1346 1. चिन्नाराज रेडडी पुत्र ओबी रेडडी 2. पदमानाबन पुत्र ओबी रेडडी 3. धनशेखर पुत्र ओबी रेडडी 4. मदा रेडडी पुत्र ओबी रेडडी 5. अंदल पत्नी गोविंदन
				498/2बी (भाग)	498/ 2बी2	निजी	शुष्क	717 1. गोपाल पुत्र गोविंदन 2. चिथाम्बी पुत्र गोविंदन 3. गुनारोखरन पुत्र कंदासामी 4. उदयकुमार पुत्र कंदासामी 5. सिवाकामी पुत्री कंदासामी 6. वदीवेल पुत्र गोपाल 7. कमला पत्नी कृष्णन
				498/2सी	498/2सी	निजी	शुष्क	1400 1. चिन्नासामी पुत्र कालीप्पन 2. मुरुगेसन पुत्र चिन्नासामी 3. सीवन पुत्र चिन्नासामी
				498/2डी	498/ 2डी	निजी	शुष्क	1350 1. कानु पुत्र (ए) पेरुमल कालीप्पन 2. राजामल पत्नी कानु 3. गोविंदारासु पुत्र कानु 4. कथिरवेलु पुत्र कानु 5. राजी पुत्र कानु 6. थंगावेल पुत्र कानु
				498/2ई	498/2ई	निजी	शुष्क	1350 1. गोपाल पुत्र पुत्तु गाउँडर 2. मोगना पत्नी पेरियासामी 3. विजया पत्नी पेरियासामी 4. अरुणकुमार पुत्र पेरियासामी
				498/2एफ (भाग)	498/ 2एफ1	निजी	शुष्क	590 1. चिन्नासामी पुत्र मथान 2. कासी पुत्र चिन्नासामी
				507/2ए (भाग)	507/2ए2	निजी	शुष्क	3424 1. श्रीनिवासन पुत्र पौनुसामी रेडडी 2. पलानीमल पत्नी जयाकृष्णन 3. मुरुगमल पत्नी कुर्बेदिरन 4. बसवाराज पुत्र पुसामी मरिप्पन
				507/2बी (भाग)	507/2बी1	निजी	शुष्क	989 1. गोपाल रेडडी पुत्र नरसिम्हा रेडडी 2. जया पत्नी वी. एम. बसवाराज 3. गोपाला कृष्णन पुत्र चिन्नासामी 4. पलानीमल पत्नी सीवाकुमार 5. नर्मदा पत्नी मायन 6. कांचीमलाई पुत्र गोवरप्पन 7. कला पत्नी रामसामी

1	2	3	4	5		6	7	8	9
									8. कृष्णन पत्नी ईलापिल्ले 9. कलाईरासु पुत्र रामाकृष्णन 10. जयालक्ष्मी पत्नी गोविंदराज
				507/2सी (भाग)	507/2सी1	निजी	शुष्क	967	1. अप्पुसामी रेड्डी पुत्र नरसिम्हा रेड्डी 2. जयलक्ष्मी पत्नी कावैरीप्पन
				507/2डी (भाग)	507/ 2डी2	निजी	शुष्क	1100	1. अप्पुसामी रेड्डी पुत्र नरसिम्हा रेड्डी 2. कालियामल पत्नी अपावु 3. कालियामल पत्नी सुब्रामनि 4. जयलक्ष्मी पत्नी कावैरीप्पन
				508/1ए (भाग)	508/1ए2	निजी	शुष्क	4550	1. सुजाता पत्नी वेनु गोपाल 2. जयालक्ष्मी पत्नी कावैरीप्पन
				508/1बी (भाग)	508/1बी2	निजी	शुष्क	2053	1. विमला पत्नी मुरुगेशन 2. अनाथि पत्नी मुनिराज 3. वेदियाप्पन पुत्र मुनियाप्पन 4. राजेश्वरी पुत्री गुंदीयार 5. श्रीधर पुत्र वैक्कारमन 6. सबिया बेगम पत्नी अब्दुल कादर 7. शान्ति पत्नी चिन्नासामी
				508/2 (भाग)	508/2ए	निजी	शुष्क	106	श्रीनिवासन पुत्र राजी रेड्डी
				513/1 (भाग)	513/ 1बी	निजी	शुष्क	1550	1. मुनिअप्पा गाउंडर पुत्र पेरुमल गाउंडर 2. धनपाल पुत्र मुनिअप्पा गाउंडर 3. गोविंदसामी पुत्र मुनिअप्पा गाउंडर 4. मधियान पुत्र नागप्पा गाउंडर 5. चिन्नापिया गाउंडर पुत्र पेरुमल गाउंडर 6. चेलाजुटी पुत्र पेरुमल गाउंडर
				513/2 (भाग)	513/2 ए1बी	निजी	शुष्क	450	1. मोलागन @ चिन्नापियन पुत्र कालीयाप्पन 2. वी. एम. बासुराज पुत्र मरिअप्पा गाउंडर 3. कंगम पत्नी मुथु @ राजू 4. इंदिरानी पत्नी अंदी कलावती पत्नी नटसज्जन
					513/2ए2बी	निजी	शुष्क	178	चिन्नामल पुत्री कुपुसामी
					513/2बी2	निजी	शुष्क	34	विश्वनाथन पुत्र कुपुसामी
					513/2सी	निजी	शुष्क	200	मदान पुत्र चिन्नासामी
					513/2डी	निजी	शुष्क	350	
				513/3 (भाग)	513/3ए	निजी	शुष्क	1350	गोविन्दामल पत्नी मुनुसामी
				513/4 (भाग)	513/4ए	निजी	शुष्क	360	1. चिन्नासामी पुत्र माटुकरन 2. चिन्नामल पत्नी चिन्नासामी 3. गोविंदराज पुत्र चिन्नासामी
				575/1डी (भाग)	575/ 1डी2	निजी	शुष्क	800	1. गोपाल पुत्र गोविंदन 2. चिन्नामल पुत्र गोविंदन 3. गुनाशेखरन पुत्र कंदासामी 4. उदयकुमार पुत्र कंदासामी 5. सिवाकामी पुत्री कंदासामी 6. वंदीवेल पुत्र गोपाल
				575/1ई 1	575/1ई 1	निजी	शुष्क	250	1. कालियामल पत्नी कानु 2. मुथु पुत्र कानु 3. के. मनि पुत्र कानु 4. रुक्मनकाथन पुत्र कानु 5. वैक्कासन पुत्र कानु 6. गोविंदामल पुत्री कानु

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								7. गोपाल पुत्र गोविंदन 8. गोविंदन पुत्र पुदान 9. चिन्नाम्बी पुत्र गोविंदन 10. गुनाशेखरन पुत्र कंदासामी 11. उदयकुमार पुत्र कंदासामी 12. सिवाकामी पुत्री कंदासामी 13. भारती पत्नी चिन्नाम्बी 14. वेदीवल पुत्र गोपाल	
				575/1ई 2	575/1ई 2	निजी	शुष्क	150	भारती पत्नी चिन्नाम्बी
				575/1ई 3	575/1ई 3	निजी	शुष्क	100	गोविंदन पुत्र पुदान
				575/1एफ1बी (भाग)	575/6	निजी	शुष्क	7	एन. एम. अरुण पुत्र डी. एन. मधिया कृष्णन
				575/1एफ1डी (भाग)	575/8	निजी	शुष्क	238	एन. एम. अरुण पुत्र डी. एन. मधिया कृष्णन
				575/1एफ1ई (भाग)	575/ 9	निजी	शुष्क	270	एन. एम. अरुण पुत्र डी. एन. मधिया कृष्णन
				575/1एफ1एफ	575/1एफ1एफ	निजी	शुष्क	150	सेदरायन पुत्र पेरुमल
				575/1एफ1जी	575/1एफ1जी	निजी	शुष्क	100	1. कालियामल पत्नी कानु 2. मुर्ति पुत्र कानु 3. मनि पुत्र कानु 4. भारती पत्नी चिन्नाम्बी 5. एन. एम. अरुण पुत्र डी. एन. मधिया कृष्णन
				575/3	575/3	निजी	शुष्क	250	भारती पत्नी चिन्नाम्बी
				575/4	575/4	निजी	शुष्क	100	गोविंदन पुत्र पुदान
				575/5	575/5	निजी	शुष्क	450	पेरियासामी पुत्र इलाप्पा गाउंडर
				575/1एफ1एच	575/1एफ1एच	निजी	शुष्क	50	एन. एम. अरुण पुत्र डी. एन. मधिया कृष्णन
				575/1एफ2	575/1एफ2	निजी	शुष्क	80	सुबीरामनि पुत्र कानु गाउंडर
				575/1जी2	575/1जी2	निजी	शुष्क	146	इलाप्पा गाउंडर पुत्र माथा गाउंडर
				575/1जी3	575/1जी3	निजी	शुष्क	104	पेरियासामी पुत्र इलाप्पा गाउंडर
				575/1जी4 (भाग)	575/1जी4ए	निजी	शुष्क	48	थगावल पुत्र इलाप्पा गाउंडर
				575/1एच (भाग)	575/1एच2	निजी	शुष्क	900	1. इलाप्पा गाउंडर पुत्र माथन 2. कानु पुत्र अली 3. चिन्नासामी पुत्र पेरुमल 4. कानु पुत्र कालीप्पन 5. वेक्टरसन पुत्र पेरुमल
				575/1जे (भाग)	575/ 1जे2	निजी	शुष्क	21	1. चिन्नासामी पुत्र कालीप्पन 2. रामचंद्रन पुत्र चिन्नासामी 3. मुरुगन पुत्र चिन्नासामी 4. सीवन पुत्र चिन्नासामी
				575/1के1	575/1के1	निजी	शुष्क	500	1. गोपाल पुत्र गोविंदन 2. चिन्नाम्बी पुत्र गोविंदन 3. गुनाशेखरन पुत्र कंदासामी 4. उदयकुमार पुत्र कंदासामी 5. सीवाकामी पुत्री कंदासामी 6. वेदीवल पुत्र गोपाल
				575/1के2	575/1के2	सरकारी	आदि-द्रविडा गांव के स्थल के लिए सड़क	100	सरकारी
				575/1के3	575/1के3	निजी	शुष्क	200	1. गोपाल पुत्र गोविंदन 2. चिन्नाम्बी पुत्र गोविंदन 3. गुनाशेखरन पुत्र कंदासामी 4. उदयकुमार पुत्र कंदासामी 5. सीवाकामी पुत्री कंदासामी 6. वेदीवल पुत्र गोपाल

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				576/1ए	576/1ए	निजी	शुष्क	700 गोविंदन पुत्र पुदान
				576/1बी (भाग)	576/ 2	सरकारी	आदि-द्रविडा गांव का स्थल	5500 सरकारी
				577 (भाग)	577/2	निजी	नम	750 गोविंदन पुत्र पुदान
				578/1 (भाग)	578/1बी	निजी	नम	296 गोविंदन पुत्र पुदान
				578/2 (भाग)	578/2बी	निजी	नम	25 1. मरिप्पन पुत्र गोविंदन 2. पलानी पुत्र गोविंदन 3. राजागोपाल पुत्र गोविंदन
				579 (भाग)	579/2	निजी	नम	483 1. मरिप्पन पुत्र गोविंदन 2. पलानी पुत्र गोविंदन 3. राजागोपाल पुत्र गोविंदन
				569/1 (भाग)	569/3	सरकारी	कुआ	2150 सरकारी
				569/2 (भाग)	569/2बी	निजी	शुष्क	262 1. नाधन पुत्र लक्ष्मी रेडडी 2. वेनियन पुत्र मुनुसामी रेडडी 3. चेन्नाकेश्वन पुत्र वेक्टरमन 4. घनराज पुत्र थोपिकन @ चिन्नासामी 5. संजीवन पुत्र अपावु गाउंडर
				570/1	570/1	निजी	शुष्क	600 1. वेनियन पुत्र वेक्टरमन 2. मुरुगन पुत्र शानमुगम
				570/2 (भाग)	570/2 ए	निजी	शुष्क	587 1. घनराज पुत्र थोपिकन @ चिन्नासामी 2. मुरुगन पुत्र शानमुगम
				571/1 (भाग)	571/1ए	निजी	शुष्क	183 1. नाधन पुत्र लक्ष्मी रेडडी 2. वेनियन पुत्र मुनुसामी रेडडी 3. चेन्नाकेश्वन पुत्र वेक्टरमन 4. घनराज पुत्र थोपिकन @ चिन्नासामी 5. संजीवन पुत्र अपावु गाउंडर
				571/2 (भाग)	571/2ए	निजी	शुष्क	1557 1. संजीवन पुत्र अपावु गाउंडर 2. रंगानाथन पुत्र संजीवन
				571/3	571/3	निजी	शुष्क	850 1. नाधन पुत्र लक्ष्मी रेडडी 2. संजीवन पुत्र अपावु
				568 (भाग)	568 /2	निजी	नम	1000 1. नाधन पुत्र लक्ष्मी रेडडी 2. वेनियन पुत्र मुनुसामी रेडडी 3. चेन्नाकेश्वन पुत्र वेक्टरमन 4. घनराज पुत्र थोपिकन @ चिन्नासामी 5. संजीवन पुत्र अपावु गाउंडर
		(7)ए. जेटीहल्ली		91/1	91/1	निजी	शुष्क	350 सुबीरामनि पुत्र वायाबुरी
				91/2	91/2	निजी	शुष्क	450 1. कृष्णन पुत्र कावेरी 2. कावेरी पुत्र वायाबुरी
				91/3	91/3	निजी	शुष्क	150 कालिवामल पत्नी कंदन पुत्र वायाबुरी
				91/4	91/4	निजी	शुष्क	600 पांडीयन पुत्र कालीप्पन
				91/8 (भाग)	91/8ए	निजी	शुष्क	180 कालीप्पन पुत्र वायाबुरी
				91/9 (भाग)	91/9ए	निजी	शुष्क	840 1. कृष्णन पुत्र कावेरी 2. कावेरी पुत्र वायाबुरी
				91/10	91/10	निजी	शुष्क	300 कालीप्पन पुत्र वायाबुरी
				91/11 (भाग)	91/ 11ए	निजी	शुष्क	30 सुबीरामनि पुत्र वायाबुरी
				91/12	91/12	निजी	शुष्क	1100 कालीप्पन पुत्र वायाबुरी
				91/13 (भाग)	91/13ए	निजी	शुष्क	900 पांडीयन पुत्र कालीप्पन
				108 (भाग)	108 /2	निजी	शुष्क	1050 मरिप्पन पुत्र इडुम्बान

[फा. सं. भाराराप्रा/तक/एलए/केटी/धर्मापुरी 3(ए) 11/2007]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd February, 2007

S.O. 273(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1356 (E), dated the 24th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), and issued under sub-section(1) of section 3A of the National Highways Act, 1956(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/ four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7, on the stretch of land from Km 113.275 to Km 163.000 (Krishnagiri-Thoppur Ghat Section) in District Dharmapuri, in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dinathanthi”, dated the 20th September, 2006 and in “The Hindu”, dated the 22nd September, 2006 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (I) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the date of publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 113.275 to Km. 163.000 (Krishnagiri - Thoppur Ghat Section) on National Highways No-7 in the State of Tamil Nadu

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owners/ Interested persons
				Before sub division	After sub division				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dharmapuri	1. Palacode	(1) Kumbarahalli	234 (Part)	234/1	Government	Oni	94	Government
				253/1	253/1	Government	Assessed Waste Dry	2000	Government
				253/2 (Part)	253/2A	Private	Dry	818	Beemammal W/o Devan
				255/1	255/1	Government	Assessed Waste Dry	1200	Government
				255/2 (Part)	255/3	Government	Assessed Waste Dry	450	Government
				432/1A (Part)	432/1A1	Private	Dry	75	Saibunnisa W/o Shan Bhasha
				432/2 (Part)	432/3	Government	Road Margin	2303	Government
				433/2 (Part)	433/3	Government	Road Margin	1903	Government
				434/3 (Part)	434/3A	Private	Dry	360	Nanjammal W/o Chinnathambi
				435/1A (Part)	435/1A1	Private	Dry	950	1. Chinnasamy, 2. Mathappan, Sons/o Muthu Gounder
				435/1B (Part)	435/1B1	Private	Dry	579	Papali @ Perumal S/o Pailan @ Perumal
				435/1C (Part)	435/1C1	Private	Dry	717	Raji Gounder S/o Pailan @ Perumal
				435/2 (Part)	435/3	Government	Road Margin	2233	Government
				437 (Part)	437/1	Private	Dry	4509	1. Karuppan S/o Kullian @ Nalla Gounder 2. Chinnapaiyan S/o Kullian @ Nalla Gounder 3. Kanniyappan S/o Kullian @ Nalla Gounder 4. Dhanapal S/o Kullian @ Nalla Gounder 5. Devaraj S/o Kullian @ Nalla Gounder 6. Periyappappa D/o Kullian @ Nalla Gounder 7. Kamala D/o Kullian @ Nalla Gounder 8. Kullian @ Nalla Gounder
			(2) Karimangalam	1		1 Government	Battai	20550	Government/ Lying as NH Road
				2		2 Government	Battai	15550	Government/ Lying as NH Road
				3/1	3/1	Private	Dry	300	Karuppan @ Chinnasamy S/o Mallukaraan @ Periannan (1), Murugan (2), Chandiran Sons/o Aria Gounder (3), Singaram (4), Patthu Sons/o Kooluvayan (5), Chinnapaiyan S/o Nallakavundar (6)
				3/2 (Part)	3/2A	Private	Dry	129	Karuppan @ Chinnasamy S/o Mallukaraan @ Periannan
				3/3 (Part)	3/3A	Private	Dry	356	Chinnasamy S/o Aria Gounder
				3/4 (Part)	3/4A	Private	Dry	322	Chandiran S/o Aria Gounder
				3/5 (Part)	3/5A	Private	Dry	326	Chinnasamy S/o Muthu Gounder
				3/6 (Part)	3/6A	Private	Dry	259	Patthu S/o Kooluvayan
				3/7 (Part)	3/7A	Private	Dry	239	Singaram S/o Kooluvayan
				3/8 (Part)	3/8A	Private	Dry	551	Chinnapaiyan S/o Kullian @ Nalla Gounder
				4/1 (Part)	4/1A	Private	Dry	1118	Chinnavan S/o Kumastha (1), Chinnathambi S/o Kumastha (2)
				4/4 (Part)	4/4A	Private	Dry	518	Anumantha Gounder S/o Kolaintha @ Arimutthu Gounder
				4/5 (Part)	4/5A	Private	Dry	596	Karuppan S/o Mushapuri @ Nalla Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				5/4	5/4	Private	Dry	800	1.Chinnasamy, 2.Chandiran, 3.Murugan Sons/o Ariya Gounder, 4.Arun S/o Vedi, 5.Aria Gounder S/o Anumantha Gounder, 6. U.A.Kanniyappan, 7 Chinnappaiyan Sons/o NallaGounder, 8 Vedi S/o Arimuthu Gounder, 9.Mahendiran S/o Natarajan
				5/6 (Part)	5/6A	Private	Dry	145	Murugan S/o Aria Goundan
				6/2A (Part)	6/2A1	Private	Dry	923	1.Arun S/o Vedyappan, 2.Nalla Gounder, 3.Chinnappaiyan S/o Nalla Gounder, 4. Vedyappan S/o Arimuthu Gounder
				6/2B (Part)	6/2B1	Private	Dry	202	1.Aria Gounder S/o Anumantha Gounder, 2.Palani S/o Kolanthal @ Perichi, 3. U.A.Kanniyappan, 4.Chinnappaiyan Sons/o Nalla Gounder. 5. Kullan @ Nalla Gounder S/o Nallan
				6/2C (Part)	6/2C1	Private	Dry	425	Palani S/o Kolanthal @ Perichi,
				7/2A (Part)	7/2A1	Private	Dry	794	Palani S/o Kolanthal @ Perichi,
				7/2D (Part)	7/2D1	Private	Dry	284	Kuppusamy @ Karuppan S/o Mushapuri @ Periyannan
				7/2E (Part)	7/2E1	Private	Dry	313	1.Pikkammal W/o Palani 2.Pachiammal W/o Palani
				11/1A (Part)	11/1A1	Private	Dry	74	1.Chinnasamy @ Nalla 2. Kallyappan S/o Samiyar Mathan
					11/1A3	Private	Dry	98	1.Chinnasamy @ Nalla Gounder, 2. Kallyappan S/o Samiyar Mathan
				11/ 1C1	11/1C1	Private	Dry	750	1. Murugesan S/o Kollandai @ Perichi 2.Raaji S/o Kolanthal @ Perichi
				12/1C1A (Part)	12/8	Private	Dry	14	1.Krishnan S/o Kannu Gounder, 2.Sarasu W/o Krishnan
				12/3 (Part)	12/3A	Private	Dry	16	Kaveri S/o Nagappa Gounder
				12/4 (Part)	12/4A	Private	Dry	77	1.Krishnan S/o Kannu Gounder, 2.Sarasu W/o Krishnan
				12/1C1B (Part)	12/9	Private	Dry	114	1.Mrugesan S/o Munusamy, 2.Shanthi
				12/1C2 (Part)	12/1C2A	Private	Dry	23	1.Thirupathi S/o Karuppannan 2.Bajasubramaniyan S/o Venkatesa Chetti, 3.Shankaran S/o Kolanthal Gounder
				12/2A (Part)	12/2A2	Private	Dry	51	1.Thirupathi, 2.Munusamy, 3.Rajamanickam Sons/o Karungkannan
				12/2C (Part)	12/2C1	Private	Dry	3	Venkattasubramaniyan S/o Govindan
				13/ 1A1Q (Part) /	13/7	Private	House site	280	P.V.Vadivelu S/o Vedyappa Gounder
				13/1A1A1 (Part))	13/4	Private	Dry	183	1.Malarvizhi W/o Rajamani, 2.Kaveri 3. Chinnasamy, 4.Murugesan, 5.Jadaiyan, 6.Pathmavathi, 7. K.G.Santhi, 8.Gulrose Begam, 9.B.Kumar, 10.Jothi, 11.Lakshmi, 12. Gopal S/o Kannan, 13. Chinnasamy, 14.Nedunchezhiyan, 15.Mangammal, 16.R.Kuppan, 17.Shanthi, 18.G.Devarajan, 20.G.Sampath, 21.K.M.Dhanabackiyam, 22.S.Gunasekaran, 23.K.Ramakrishnan, 24.Murugan, 25.Selvaraj, 26.C.Sarala, 27.Haseena, 28.Ramathyee, 29.Mani, 30.Thulasiammal, 31.Pasavammal, 32.Syed Malick.
					13/5	Private	Dry	239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				13/1B1 (Part)	13/1B1B	Private	Dry	63	1.Sanathkumar, 2.Rajavel, 3.Muniraj Sons/o Duraisamy
				13/1B2 (Part)	13/1B2B	Private	Dry	496	1.Murugesan, 2.Kanniyappan, 3.Kuppusamy, (4.Kannaiyan, 5. Pachiyappan Sons/o Gopal)
				13/1B3B	13/1B3B	Private	Dry	250	Murugesan S/o Govinda Gounder, Meenakshi W/o Nallappa Chetti
				13/1B3C	13/1B3C	Private	Dry	250	Palaiyan S/o Periyasamy
				13/1B3A1 (Part)	13/1B3A1	Private	Dry	310	1.Thirupathi S/o Karuppannan, 2.Marimuthu S/o Angamutthu, 3.Murugesan S/o Palani Gounder
				14/1B2A (Part)	14/11	Private	Dry	1000	4.Kalyani W/o Srinivasan, 1.T.C.Murugesan S/o Chinnappa Gounder, 2.Rajasekar, 3.Sivasanmugam Sons/o Anumantha Gounder, 4. Periyapappa W/o Murugan, 5. Pachiyappa Gounder S/o Mannugaan @ Pachiyappan, 6.Venkatesan S/o Rangasamy, 7.Senthil S/o Chinnappillai, 8.Murugan S/o Chinnasamy, 9.Arnmugam S/o Krishnan, 10.Krishnan S/o Venkatappa Naidu, 11. Murugesan S/o Anumanthan, 12. Anumanthan S/o Muniya Gounder
				14/4	14/4	Private	Dry	250	Pattabiraman S/o Seshadiri
				14/1B2B (Part)	14/12	Private	Dry	45	1.Arthanaani S/o Periyasamy, 2.N.Sakkaravarthi S/o Nanjundan, 3.Varadaraj S/o Chinnu, 4.Murugesan S/o Pathalan @ Ramagoundan, 5.Rajamani, S/o Thangavel, 6.Nirmala D/o Thangavel, 7.Kantha W/o Thangavel, 8.Sundaraparthi S/o Subbaraya achari, 9.Sriprathasini W/o K.R.Venkatesan, 10.M.Sundari W/o Muthuvel, 11.RamaGounder S/o Sakkagounder, 12.Vinobaji S/o Mare Gounder, 13.Duraiaraji S/o Chinnasamy
					14/13	Private	Dry	45	14.C.Priyadharsini
				14/1B2C (Part)	14/14	Private	Dry	200	1.Lakshmi W/o Murugan, 2.Nanjammal W/o Chinnasamy, 3. Chinnasamy S/o Vathalan @ Rama Gounder, 4.Chellan, 5.Kaliyammal, 6.A.Paila Gounder, 7.Gowrammal W/o Vishwanathan, 8.Parvathi W/o Perumal, 9.Perumal S/o Mariappa Gounder, 10.Pullukkaran
				14/3 (Part)	14/3B	Private	Dry	272	Murugesan S/o Rajagopal
				14/9	14/9	Private	Dry	50	V.Amuthavalli W/o Velu
				15/1A (Part)	15/1A2	Private	Dry	6	Nanjammal W/o Chinnasamy, Santhamoorthy S/o Nainaar
				16/1A1A	16/1A1A	Private	Dry	34	1.K.A.Dhayalan, 2.Thirupathi
				16/1A1B	16/1A1B	Private	Dry	66	Murugesan S/o Rajagopal
				16/1A2B	16/1A2B	Private	House site	75	Mookammal W/o Munusamy
				16/1A2A1	16/1A2A1	Private	House site	24	Vasantha W/o Varadaraj
				16/1A2A2	16/1A2A2	Private	House site	15	Amuthavalli W/o Velu
				16/1A2A3	16/1A2A3	Private	House site	18	Vasantha W/o Varadaraj
				16/1A3A	16/1A3A	Private	House site	3	Mookammal W/o Munusamy
				16/1A3B	16/1A3B	Private	House site	127	Lakshmi W/o Murugan
				16/1A4A	16/1A4A	Private	House site	35	Lakshmi W/o Murugan
				16/1A4C	16/1A4C	Private	House site	433	1.Amaravathi W/O Veeragounder, 2.Valli W/O Sampath, 3.Manickam S/O Krishnan, 4.Rajeswari W/O Manickam, 5.Thiruppathi S/o Karuppa Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				16/54	16/54	Private	House site	20	Vasantha W/O Varatharaj
				26/1A	26/1A	Government	Road	1450	Government
				26/1B1 (Part)	26/1B1A	Private	Dry	45	Naveenkumar S/O Muniraji
				26/1B2 (Part)	26/1B2A	Private	Dry	2	1.Duraisamy S/O Chennappa Gounder 2.Sancheevan S/O Kunthili @ Annamalai Gounder 3.Periannan S/O Chennappa Gounder
				26/2A	26/2A	Government	Road	500	Government
				26/2B (Part)	26/2B1	Private	Dry	14	Velappan S/O Velappa Gounder
				28/1	28/1	Government	Road	2450	Government
				28/2A	28/2A	Government	Road	100	Government
				28/2B	28/2B	Government	Road	600	Government
				28/2C2 (Part)	28/2C2A	Private	Dry	41	Naveen Kumar S/O Muniraji
				28/3 (Part)	28/3A	Private	Dry	350	1.Thekkan S/O Lakshman 2.Pallikudathan @ Annamalai Gounder S/o Lakshmanan
					28/3C	Private	Dry	72	1.Thekkan S/O Lakshman 2.Pallikudathan @ Annamalai Gounder S/o Lakshmanan
				29/2	29/2	Government	Road	1150	Government
				30/1A	30/1A	Government	Road	550	Government
				30/1B	30/1B	Government	Road	750	Government
				30/1C1A (Part)	30/4	Private	Dry	430	1.Veerappa Chetti S/o Rajappa Chetti 2.Parvathi
					30/5	Private	Dry	91	3.Karimangalam Co-op Society
				30/1C1B (Part)	30/6	Private	Dry	300	1.Murugesan S/o Periyannan, 2.Mathappan S/o Chennappan, 3. Periyannan S/o Chennappan Gounder 4. Veerappa Chetti S/o Rajappa Chetti
				30/1C1C (Part)	30/7	Private	Dry	230	1.Periyannan, 2.Senthil Kumar Sons/o Chennappa Gounder
				30/1C2 (Part)	30/1C2B	Private	Dry	684	1.Periyannan, 2.Senthil Kumar Sons/o Chennappa Gounder
				30/3B	30/3B	Private	Dry	300	Thekkan S/o Lakshmanan
				38/1A3 (Part)	38/1A3B	Private	Dry	13	Muniyammal W/o Suttari @ Mari Gounder
				38/1A4 (Part)	38/1A4B	Private	Dry	918	Velappan S/o Velappan Gounder
				38/1A5 (Part)	38/1A5B	Private	Dry	5	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				39/1A1 (Part)	39/1A1B	Private	Dry	659	Velappan S/o Velappan Gounder
				39/1A 2 (Part)	39/1A2B	Private	Dry	1188	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				39/1C1 (Part)	39/1C1A	Private	Dry	122	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				39/1C2 (Part)	39/1C2B	Private	Dry	30	Velappan S/o Velappan Gounder
				39/1C3 (Part)	39/1C3A	Private	Dry	90	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				40/1A	40/1A	Private	Dry	200	Velappan S/o Velappan Gounder
				40/1B (Part)	40/1B2	Private	Dry	475	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				40/2	40/2	Government	Road	5450	Government
				40/3A (Part)	40/3A1	Private	Dry	253	Velappan S/o Velappan Gounder
				40/3B (Part)	30/3B1	Private	Dry	81	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				46/1	46/1	Government	Road	200	Government
				47/1A (Part)	47/1A2	Private	Dry	857	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				49/1C (Part)	49/1C1	Private	Dry	38	Marappan S/o Chinnapaiyan @ Nalla Gounder
				78/1A (Part)	78/1A2	Private	Dry	1366	Muniyammal W/o Venkatesa Chetti
				78/1C (Part)	78/1C1	Private	Dry	208	Devarajulu S/o Veerappa Chettiyar
				80/1A (Part)	80/1A2	Private	Dry	560	Sasikala W/o Krishna Chettiyar
				80/1B	80/1B	Government	Road	2250	Government
				80/1C (Part)	80/1C1	Private	Dry	170	Devarajulu S/o Veerappa Chettiyar
				81 (Part)	81/2	Government	Battai	600	Government
				83/1 (Part)	83/1B	Private	Dry	1204	1.Nagarjun S/o Nagappa Chettiyar 2.Govinda ChettiS/o Ramichetti
				83/12A (Part)	83/12A1	Private	Dry	8	Yasodha W/O Ramasamy 2.Kalyani W/O Ramamoorthy, 3.Sarkarai @ Ramasamy S/O Munisamy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				83/4 (Part)	83/4A	Private	Dry	6	Rangasamy
				83/3E (Part)	83/3E1	Private	Dry	9	G.Rathna W/O Gopalakrishnan
				83/3L (Part)	83/3L1	Private	Dry	15	Marimuthu w/o Kandha
				83/3N (Part)	83/3N1	Private	Dry	6	Lying as path
				83/3O (Part)	83/3O1	Private	Dry	17	Perumayee w/o Venkatesan .
				83/3U (Part)	83/3U1	Private	Dry	24	P.S.VijayaLakshmi W/o Raveendran
				83/3V1 (Part)	983/3V1A	Private	Dry	5	Lying as Path
				83/3W	83/3W1	Private	Dry	20	Mottalan
				83/3A1 (Part)	83/3A1A	Private	Dry	5	Lying as path
				83/3A4 (Part)	833A4A	Private	House site	25	K.R Natarajan
				83/3A5 (Part)	83/3A5A	Private	Dry	6	Lying as path
				83/3A6 (Part)	83/3A6A	Private	Dry	26	A.P.Perumal
				90/2B1 (Part)	90/2B1A	Private	Dry	270	Nagarjun S/O Nagappachettiyar
				91/2A (Part)	91/2A2	Private	Dry	994	Nagarjun S/O Nagappachettiyar
				91/3C (Part)	91/3C1	Private	Dry	80	Ramachandiran S/O Ramar
				94/1A 20A (Part)	94/39	Private	Dry	454	1.Venkatesa chetty S/o Pali Appichetti 2.Kalaivani W/O Vedappan, 3.Manorama W/o Lakshmanan, 4.K.R.Kantha W/o Rami Chetti, 5.Lakshmanan S/o Muthusamy 6.Madhu @ Nanja Gounder S/o Nallagounder, 7.Murugammal, W/o Ganesan, 8.B.A.Anverkhan S/o Ajeesh sahib, 9.K.Chandarasekaran S/o Krishnalyer, 10.Nalliyappa S/o Palani Gounder, 11.Ganesan, 12.Selvam S/o Kuppan 13.K.Nagaraj S/o Kuppan, 14.Bali Chetti S/o Pethanna Chetti 15.C.SBalasubramaniam S/o Srinivasan, 16.M.Kalaivani W/o Marugesan, 17.K.Ramesh S/o Konda Achari 18.K.Chandra W/o Jeyapal, 19.Gulrose W/o Appees.
				94/29 B1 (Part)	94/40	Private	Dry	865	1.G.Sekar S/O Gopal Gounder 2.Sivaji S/O Nagappan 3.Kalaivani W/O Vedappan 4.Muniraji S/o Thirupathi 5.A.G.Duraisamy S/O Pali Appichetti, 6.Deivanai, 7.Sivaramakrishnan S/o Ramasamy, 8.Rangasamy S/o Marimuthu, 9.Dhass Chetti S/o Chinnappa chettiyar 10.Gunasekaran S/o Gopal Chettiyar 11.Dhanalakshmi W/o Mayakannan, 12.D.Nagendiran S/o Devaraja Iyer, 13.K.C.Arumugam, 14.K.C.Sathiyamoorthy, 15.Jayaraman S/o Duraisamy 16.Thirupathi S/o Murugan, 17.Venkatasubramaniam S/o Govindan, 18.Krishnammal D/o Narashimha Iyer, 19.Muthu Gounder, 20.Maran, 21.Appusamy S/o Muthu Gounder, 22.V.Ramesh S/o Vedhachalam 23.Selladurai 24.K.G.Duraisamy
				94/29 B2 (Part)	94/41	Private	Dry	30	K.C.Sathiyamoorthy S/O K.K.Chinnasamy
				94/29C	94/29C	Private	Dry	100	D.Nagendiran S/O Devaraji Ayyar
				94/7 (Part)	94/7B	Private	Dry	146	Unnamalai W/o Perumal
				94/8 (Part)	94/8B	Private	Dry	53	Lying as Path
				94/16 (Part)	94/16B	Private	House site	182	1.N.Madhu @ Nanja Gounder, 2.Ramachandran 3.Kumar Sons/o NanjaGounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				94/33 (Part)	94/33B	Private	Dry	9 V.Kalaivani W/o Vedappan
				95/1B1B (Part)	95/30	Private	House site	27 M.Kantha
				95/1B1A (Part)	95/29	Private	House site	3 Kantha W/o Marimuthu
				95/3 (Part)	95/3A	Private	Dry	18 Lying as Path
				95/14 (Part)	95/14A	Private	House site	106 N.Varadarajulu
				95/15 (Part)	95/15A	Private	House site	68 V.Umarani
				95/20 (Part)	95/20A	Private	Dry	16 Lying as Path
				95/26 (Part)	95/26A	Private	House site	61 C.Soudeshwari
				102/2A (Part)	102/2A1	Private	Dry	250 1.Ramamoorthy S/o Munusamy Chetti 2.Prusothaman S/o Munusamy Chetti
				104/1A (Part)	104/1A2	Private	Dry	1101 1.Ramamoorthy S/o Munusamy Chetti 2.Prusothaman S/o Munusamy Chetti
				104/1C2 (Part)	104/1C2B	Private	Dry	142 Mathammal W/o Rajamanickam
				104/1C1A (Part)	104/3	Private	Dry	28 Lying as Path
				104/1C1B (Part)	104/4	Private	Dry	77 Sekar S/o Govinda Naidu
				104/1C1C (Part)	104/5	Private	Dry	76 Gowriammal W/o Murugesan
				104/1C3A	104/1C3A	Private	Dry	120 Selvi W/o Murugesan
				104/1C3B	104/1C3B	Private	Dry	130 1.Radha S/o Govindasamy, 2.Periyannan S/o Govinda Gounder
				104/1E (Part)	104/1E2	Private	Dry	106 Karayan @ Munusamy S/o Muniyan
				104/1B4 (Part)	104/1B4B	Private	Dry	71 C.Manickam S/o Chinnu Chettiar
				104/1B5 (Part)	104/1B5B	Private	Dry	74 Savithiri W/o Ramnathan
				104/1B6 (Part)	104/1B6B	Private	Dry	28 Karayan @ Munusamy S/o Muniyan
				104/1B10 (Part)	104/1B10 B	Private	Dry	74 1.Rathakrishnan W/o Govinda Chetti, 2.Sulosana W/o Natesan
				104/1 B11 (Part)	104/1B11	Private	Dry	75 Sivalingam S/o Chinnu Chettiar
				104/2A (Part)	104/2A2	Private	Dry	20 Lying as Path
				104/2D (Part)	104/2D2	Private	Dry	155 Priyasamy S/o Chinnasamy
				104/2E (Part)	104/2E2	Private	Dry	45 Lying as Path
				104/2F	104/2F	Private	Dry	35 Selvam S/o Narayanan
				112/1A (Part)	112/1A2	Private	Dry	1207 1.Ramamoorthy S/o Munusamy Chetti 2.Purusothaman S/o Munusamy Chetti
				112/2 (Part)	112/2B	Private	Dry	33 1.Ramamoorthy S/o Munusamy Chetti 2.Purusothaman S/o Munusamy Chetti
				113/1 A3B (Part)	113/3	Private	Dry	1500 1.Murugesan S/o Sundaram, 2.Vijalakshmi W/o Suresh Babu, 3.Ananthi W/o Bakthavathsalam,
				176/1 (Part)	176/1B	Private	Dry	30 1.Perumal S/o Ramasamy Gounder, 2.Konari @Subramani, 3.Ganesan Sons/o Iyasamy Gounder
				176/3 (Part)	176/3A	Private	Dry	1700 Muthayee W/o Ramasamy
				177/2A (Part)	177/2A2	Private	Dry	289 Dhanalakshmiyammal W/o Subramani
				514 (Part)	514/2	Government	Grazing ground	800 Government
				515 (Part)	515/2	Government	Grazing ground	1695 Government
				516/1 (Part)	516/1B	Private	Dry	435 Rajeshwari W/o Devaraji, Minor.Rajasekaran G/o K.G.Devarajan
				516/2	516/2	Government	Battai	2400 Government
				517/1 (Part)	517/1B	Private	Dry	752 1.Devarajan S/o Govindasamy Naidu, 2.Selvi W/o Jayapal
				517/2	517/2	Government	Battai	1750 Government
				522/1	522/1	Government	Battai	150 Government
				522/2 (Part)	522/2B	Private	Dry	87 1.Devarajan S/o Govindasamy Naidu, 2.Selvi W/o Jayapal
				523/1	523/1	Government	Battai	1100 Government

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				523/2 (Part)	523/2B	Private	Dry	737	1 k.G.Devarajan s/o Govindasamy naidu 2.Jayapal S/o Govindasamy naidu
				553 (Part)	553/2	Government	Battai	390	Government
				554 (Part)	554/2	Private	Dry	2000	1.Lakshmanan S/o Errappa Chetti, 2.Hemamalini D/o Lakshmanan
				555/1A (Part)	555/1A2	Private	Dry	326	1.Lakshmanan S/o Errappa Chetti, 2.Hemamalini D/o Lakshmanan
				555/1E (Part)	555/1E2	Private	Dry	231	1.Chinnapayan, 2.Munusamy S/o (Late) Raji, 3.Salammal W/o (Late) Chinnasamy Raji S/o Perumal Gounder
				555/2 (Part)	555/2B	Private	Dry	226	1.Lakshmanan S/o Errappa Chetti, 2.Hemamalini D/o Lakshmanan
				556/1 (Part)	556/1B	Private	Dry	130	1.Gopal S/o Kolandai @ Perichi, 2.Ariya Gounder S/o Periyanna Gounder
				556/2 (Part)	556/2B	Private	Dry	141	1.Ariya Gounder S/o Anumantha Gounder, 2.Vediyappan S/o Arimutthu Gounder, 3.Arun (S/o) Late Vediyappan
				556/3 (Part)	556/3B	Private	Dry	259	Rangasamy S/o Perumal Gounder
				556/11 (Part)	556/11B	Private	Dry	46	Kariya Chetti S/o Jadaiyan
				557/9 (Part)	557/9B	Private	Dry	82	Kariya Chetti S/o Jadaiyan
				557/10 (Part)	557/10B	Private	Dry	146	Chinnasamy S/o Kuluvayan @ Perumal
				557/12 (Part)	557/12B	Private	Dry	137	Chinnasamy S/o Perumal
				582/1B	582/1B	Government	Road	800	Government
				582/1 C1	582/1C1	Government	Road	450	Government
			(3) Adilam	1/1A (Part)	1/1A2	Private	Dry	316	1.Sivaprakasam S/o Karuppaiya, 2. Jothi W/o Sivaprakasam,
				1/1B (Part)	1/1B2	Private	Dry	58	Sellappan S/o Ramanaickan
				1/2 (Part)	1/4	Government	Vaikkal	256	Government
				1/3	1/3	Government	Path	800	Government
				2/1 (Part)	2/1B	Private	Dry	228	Sellappan S/o Ramanaickan
				2/2	2/2	Government	Path	600	Government
				3/1 (Part)	3/1B	Private	Dry	205	Sengoda Naickar S/o Veerappa Naickar, Sellappan S/o Ramanaickan
				3/2	3/2	Government	Path	700	Government
				5 (Part)	5/2	Private	Dry	1054	Nagammal D/o Varadappan
				6	6	Government	Path	12000	Government
				7/1 (Part)	7/1A	Private	Wet	503	Kaliyammal W/o Murugan
				7/2 (Part)	7/2	Government	Vaikkal	248	Government
				11/2 (Part)	11/2	Government	Path	2248	Government
				11/3	11/3	Government	Path	2050	Government
				11/4 (Part)	11/4A	Private	Dry	978	Kasivishwanathan S/o Munusamy Chetti, Sugunakumari W/o Kasivishwanathan
				12/1 (Part)	12/1A	Private	Dry	2304	Kasivishwanathan S/o Munusamy Chettiyar, Sugunakumari W/o Kasivishwanathan
				12/2	12/2	Government	Battai	750	Government
				13 (Part)	13/1	Government	Jambu kuttai	4848	Government
				230/2 (Part)	230/2A	Private	Wet	1970	Chinnasamy S/o Perumal
				231 (Part)	231/ 1	Government	Vaikkal	682	Government
			(4) Donnenahali	16/1A (Part)	16/1A1	Private	Dry	14	Subramani S/o Kaliyappa Gounder
				16/2A (Part)	16/2A1	Private	Dry	954	1.Mari Gounder S/o Akku Mari, 2.Selvaraj S/o Chinnasamy Gounder, 3.Jaya W/o Periyannan, 4.Thirupathi S/o Ramasamy, 5.Rajamani S/o Mariyappa Gounder, 6.Palaniyammal W/o Kandasamy,
				16/2C (Part)	16/2C1	Private	Dry	2429	Palaniyappa Gounder S/o Vaipauri Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				17	17	Government	Road	1900
				19	19	Government	Road	8800
				18/1A (Part)	18/1A2	Private	Dry	2150
								1.Chinnapillai @ Vellaiyagounder S/o Thindan @ Vaiyapuri, 2.Madeshwaran, 3.Chinnasamy, 4.Sakthivel, 5.Govindasamy, 6.Madesh Sons/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder, 7 .Marimuthammal W/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder,
				18/1F (Part)	18/1F2	Private	Dry	51
								1.Sevathan @ Vellaiyan S/o 2.Mathu S/o Sevathan @ Vellaiyan
				18/1G (Part)	18/1G2	Private	Dry	562
								1.Minor Mani, 2.Idumban Sons/o Kandasamy.
				18/1H	18/1H	Private	Dry	650
								Suruttaiyan @ Arjunan S/o Palani
				18/1J (Part)	18/1J2	Private	Dry	420
								1.Minor Mani, 2.Idumban Sons/o Kandasamy. 3.Mathu S/o Sevathan @ Vellaiya Gounder
				18/1K	18/1K	Private	Dry	350
								1.Chinnapillai @ Vellaiya Gounder, 2.Umaiyan @ Mari, 3.Minor Mani, 4.Idumban, 5.Arjunan, 6.Sevathan, 7.Madeshwaran, 8.Chinnasamy, 9.Sakthivel, 10.Govindasamy, 11.Madesh, 12.Marimuthammal W/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder, 13.Mathu S/o Sevathan.
				18/1L (Part)	18/1L2	Private	Dry	424
								1.Marimuthu W/o Chinnapillai @ Vellaiyan, 2.Muthusamy, 3.Raman, 4.Ravi, 5.Settu, Sons/o Bhiman, 6.Bhiman S/o Accumari Gounder
				18/1M (Part)	18/1M2	Private	Dry	577
								1.Palani S/o Arjunan, 2.Arjunan S/o Palani
				18/1P (Part)	18/1P2	Private	Dry	132
								1.Kandasamy, 2 Sevathan @ Vellaiyan, 3.Chinnapillai @ Vellaiya Gounder S/o Thindan, 4.Mani, 5.Mathu S/o Sevathan @ Vellaiya Gounder, 6 Madeshwaran, 7.Chinnasamy, 8 Sakthivel, 9.Govindasamy, 10.Madesh, Sons/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder, 11.Marimuthammal W/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder,
				18/1Q (Part)	18/1Q2	Private	Dry	372
								1.Palani S/o Arjunan, 2.Idumban, 3.Mani, Sons/o Kandasamy, 4.Muthusamy S/o Bhiman, 5.Marimuthammal W/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder,
				18/1S (Part)	18/1S2	Private	Dry	1063
								1.Chinnapillai @ Vellaiya Gounder S/o Thindan @ Vaiyapuri, 2.Chinnasamy, 3.Sakthivel, 4.Govindasamy, 5.Madesh, 6. Madeshwaran Sons/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder, 7.Marimuthammal W/o Chinnapillai @ Vellaiya Gounder,
				18/1T (Part)	18/1T2	Private	Dry	1010
								Umaiyan @ Mari S/o Thindan @ Vaiyapuri
				20/ 2A2 (Part)	20/2A2A	Private	Dry	472
								1.Kala W/o Shankar, 2.Karpagavalli W/o Natarajan
				20/ 2A3 (Part)	20/2A3A	Private	Dry	993
								1.Raja Gounder S/o Marappa Gounder
				20/2B (Part)	20/2B1	Private	Dry	366
								1.Kamalammal W/o Arumuga Achari, 2.Rajagopal S/o Arumuga Achari
			(5) Kalappanahalli	47/1 (Part)	47/1B	Private	Dry	2080
								1.Rajagopal S/o Arumuga Achari

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				47/2A (Part)	47/2A2	Private	Dry	1300	1.Selvam S/o Thirumalai Gounder,
				47/2B (Part)	47/2B2	Private	Dry	2575	1.Chinnammal W/o Annamalai, 2.Kandasamy S/o Marimuthu Gounder, 3.Palani muthu S/o Annamalai, 4.Muthusamy S/o Annamalai, 5.Pachiyammal D/o Annamalai.
	2. Dharmapuri		(1) Konanginaickanah alli	11/1B (Part)	11/1B2	Private	Dry	345	1.Rathinam s/o Kondri Gounder 2.Lakshmiammal w/o Rathinam 3..Mangammal w/o Ponnusami 4. Ponnusami s/o Nadupaiyan @ Munusami 5. Janagi d/o Nadupaiyan @ Munusami 6.. Munusami
				12/3 (Part)	12/ 3B	Private	Dry	681	1.Rathinam s/o Kondri Gounder 2.Lakshmiammal w/o Rathinam 3..Mangammal w/o Ponnusami 4. Ponnusami s/o Nadupaiyan @ Munusami 5. Janagi d/o Nadupaiyan @ Munusami 6.. Munusami
				14/1A (Part)	14/ 1A2	Private	Dry	252	Santhi w/o Udayakumar
				14/1B (Part)	14/1B2	Private	Dry	1175	1.Rathinam s/o Kondri Gounder 2.Lakshmiammal w/o Rathinam 3..Mangammal w/o Ponnusami 4. Ponnusami s/o Nadupaiyan @ Munusami 5. Janagi d/o Nadupaiyan @ Munusami 6.. Munusami 7.Rathna w/o Sekar 8.Vengattamani s/o Lakshmana Gounder
				15/1 (Part)	15/ 1B	Private	Dry	455	Santhi w/o Udayakumar
				17/1B (Part)	17/1B2	Private	Dry	240	1.Venkatajalam s/o Ramachari 2.Saraswathi w/o Venkatajalam
				17/1A2 (Part)	17/ 1A2B	Private	Dry	750	1.Santhanam s/o Ragunathan 2.Rangaraj s/o Ragunathan
				17/1A1 (Part)	17/ 1A1B	Private	Dry	160	Govindhan s/o Munia Gounder
				17/2	17/2	Government	Vari	400	Government
				18/1B2 (Part)	18/ 1B2B	Private	Dry	465	1.Vengitajalam s/o Ramachari 2. Saraswathi w/o Venkatajalam
				18/2	18/2	Government	Vari	350	Government
				20/1A1 (Part)	20/1A1B	Private	Dry	517	1.Marimuthu Chairman Sivamani Spinning Mill 2.S.P.Marimuthu
				20/1A2 (Part)	20/ 1A2B	Private	Dry	195	1.Rathinam s/o Kondri Gounder 2.Kandasami Gounder s/o Rathinam 3.Palanisami s/o Rathinam 4.Madhammal w/o Thangavel 5.Anjaladevi w/o Adhimoolam 6.Saradha w/o Rangaraji 7.Indhira w/o Pushpagaran 8. Lakshmi w/o Rathinam 9.Lakshmi w/o Kandhasami
				20/1A3 (Part)	20/ 1A3B	Private	Dry	570	Murugesan Managing Director Sivamani Spinning Mill Dharmapuri
				20-1B	20/1B	Government	National Highways Road Margin	950	Government
				20/2	20/2	Government	Vari	950	Government
				21	21	Government	National Highways Road Margin	5400	Government
				22/1	22/1	Government	National Highways Road Margin	1950	Government
				22/2B (Part)	22/ 2B1	Private	Dry	970	1Munusami s/o Vengittappan 2.Arunachalam s/o Vengittappan 3..Radha w/o Mugunthan 4.Arunachalam s/o Munusami Naidu
				23/1	23/ 1	Private	Dry	1700	1.Chennammal w/o Diravendhiran @ Karia Gounder 2.Kandammal w/o Chennappa Naidu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								3.M.Samyaraj 4.President Agricultural Co-Operative Bank 5.Radha w/o Mugunthan 6.Thangavel 7.Special Officer Agricultural Co-Operative Bank 8.Baggiyam w/o Ranganathan	
				23/2 (Part)	23/ 2A	Private	Dry	427	1.Kanchana w/o Boodhai 2.President Agricultural Co-Operative Bank 3.M.Samyaraji 4.Mugunthan s/o Janarthanan 5.Radha w/o Mugunthan 6.Special Officer Agricultural Co-Operative Bank
				23/3 (Part)	23/3A	Private	Dry	942	Thangavel s/o Muniappa Chrttiyar
				23/4 (Part)	23/4A	Private	Dry	277	1.Kanchana w/o Boodhai 2.President Agricultural Co-Operative Bank 3.M.Samyaraji 4.Special Officer Agricultural Co-Operative Bank
				23/5 (Part)	23/5A	Private	Dry	210	1.Kandhammal w/o Chennappa Naidu 2.Baggiyam w/o Ranganathan
				24/1	24/1	Government	Road	1400	Government
				24/2	24/2	Government	Pancha-yat Road	250	Government
				24/3 (Part)	24/3	Government	Road	590	Government
				25/A1 (Part)	25/ A1A	Private	Dry	150	1.Janagi w/o Govindhan 2.Munusami s/o Govindhan
				25/A2 (Part)	25/ A2A	Private	Dry	30	1.Janagi w/o Govindhan 2.Munusami s/o Govindhan
				25/B (Part)	25/ B	Government	Pancha-yat Road	50	Government
				25/C1 (Part)	25/ C1A	Private	Dry	10	1.Nandha w/o Lakshmanan 2.Madhu s/o Chinnasami Gounder 3.Ganesan s/o Madhu Gounder 4.Kaveriammal w/o Ganesan 5.Mayila w/o Raja 6.Raja s/o Mathu gounder
				25/C2 (Part)	25/ C2A	Private	Dry	300	1.Nandha w/o Lakshmanan 2.Madhu s/o Chinnasami Gounder 3.Ganesan s/o Madhu Gounder 4.Kaveriammal w/o Ganesan 5.Mayila w/o Raja 6. Natarasan s/o Ganesan
				26/1 (Part)	26/1A	Private	Dry	772	1.Janagi w/o Govindan 2.Munusami s/o Govindan 3.Natarasan s/o Ganesan
				27/1 (Part)	27/ 1A	Private	Dry	1400	Janagi w/o Govindhan
				28 (Part)	28/1	Private	Dry	1050	Sellappa Gounder
			(2) Naduhalli	10/1B (Part)	10/ 1B2	Private	Wet	131	Suriyamoorthi s/o Murugesan (Minor) Guardian Murugesan
				11/3 (Part)	11/3B	Private	Dry	2884	Solairaj s/oPerumal Gounder
				11/4 (Part)	11/4B	Private	Dry	1010	1.Venkataraman s/o Govinda Gounder 2.Devendhiran s/o Govindha gounder
				11/5 (Part)	11/5B	Private	Dry	142	1.Rajendhiran s/o Govinda Gounder 2.Devendhiran s/o Govindha gounder
				11/6	11/6	Private	Dry	200	Devendhiran s/o Govindha gounder
				11/7	11/7	Private	Dry	600	1.Munusami s/o Govindha Gounder 2.Vengattaraman s/o Govindha gounder 3.Rajendhiran s/o Govindha gounder 4.Devendhiran s/o Govindha gounder 5. Solairaj s/oPerumal Gounder 6.Kannupaiyan s/o Perumal Gounder
				11/8 (Part)	11/ 8A	Private	Dry	1420	Munusami s/o-Govindha Gounder
				11/10 (Part)	11/10A	Private	Dry	1175	Perivasami s/o Vedi Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				12/1 (Part)	12/1A	Private	Dry	410	Munusami s/o Govinda Gounder
				12/4 (Part)	12/4A	Private	Dry	3	1.Venkataraman s/o Govinda Gounder 2.Munusami s/o Govindha Gounder
				13/1A (Part)	13/1A2	Private	Dry	1124	1.Mariappan s/o Samikkannu 2.Samikkannu s/o Mariappan
				13/1B (Part)	13/1B2	Private	Dry	2982	1.Venkataraman s/o Samikkannu 2.Samikkannu s/o Mariappan
				13/2A1	13/2A1	Private	Dry	50	Muniappan s/o Suruttayan @ Munusami
				13/2A2	13/2A2	Private	Dry	50	Perumals/o Suruttayan @ Munusami
				13/2A3 (Part)	13/2A3A	Private	Dry	55	Kona Gounder s/o Suruttayan @ Munusami
				13/2B (Part)	13/ 3	Government	Var	880	Government
				14/3B (Part)	14/3B2	Private	Dry	760	1.Palani S/o Lakshmanan 2.Sekar S/o Munusamy
				14/2E (Part)	14/ 2E2	Private	Dry	17	1.Palani s/o Lakshmanan 2.Sekar s/o Munusami
				17/1B (Part)	17/1B2	Private	Dry	218	1.Munusami s/o Kali Gounder 2.Jayakodi D/o Muniappan 3.Vanitha (Gardian Mother Jayakodi 4.Kutti s/o Munusami
				17/1C (Part)	17/1C2	Private	Dry	10	1.Munusami s/o Kali Gounder 2.Vengatraman s/o Kali Gounder
				17/1E1 (Part)	17/1E1A	Private	Dry	840	1.Muniappan s/o Suruttaiyan @ Munusami 2.Peruma w/o Muniappan
				17/1E2 (Part)	17/1E2A	Private	Dry	165	1.Sampath s/o Muniappan 2.Peruma w/o Muniappan
				17/1F (Part)	17/1F1	Private	Dry	490	Perumal s/o Suruttaiyan @ Munusami
				17/1G	17/1G1	Private	Dry	120	1.Kona Gounder s/o Suruttaiyan @ Munusami 2.Samikkannu s/o Mariappan
				20/1A1 (Part)	20/1A1B	Private	Dry	2300	1.Raja s/o Perumal 2.Pachaimmal w/o Munusami
				20/1B1A (Part)	20/3	Private	Dry	1600	1.Pacha Udayar @ Govinda s/o Thoppala Udayar 2.Moorthi s/o Pachamuthu Udayar
				21/1A (Part)	21/1A1	Private	Dry	1783	1.Danasekaran s/o Arunachalam 2.Karthikeyan s/o Arunachalam 3.Boothalu s/o Mariappan
				21/1B (Part)	21/1B1	Private	Dry	330	1.Pacha Udayar @ Govinda Udayar s/o Thoppala Udayar 2.Pachamuthu Udayar s/o Thoppala Udayar 3.Dhanasekaran s/o Arunachalam 4.N.Jayalakshmi w/o M.P.Natarajan 5.Karthikeyan s/o arunachalam 6.Moorthi s/o Pachamuthu Udayar 7.Boothalan s/o Mariappan
				21/1E (Part)	21/1E 1	Private	Dry	3	1.Chinnakannu @ Perumal s/o Vathalan @ Boothal Gounder 2.Punitha w/o Chinnasami
				35/1B (Part)	35/1B1	Private	Dry	5	Chinnakannu @ Perumal s/o Vathalan @ Boothal Gounder
				73/6 (Part)	73/ 6B	Private	Dry	3	1.Mariappan s/o Samikkannu 2. Sevathan s/o Govidhan 3.Munusami s/o Kona Gounder
				74/2 (Part)	74/2B	Private	Dry	1108	1.Varadhan s/o Chinna Bhoothala Gounder 2.Varadhan s/o Bhoothala Gounder
				74/5 (Part)	74/ 5B	Private	Dry	1250	Govidhasami s/o Annamalai Udayar
				76/2B (Part)	76/2B2	Private	Dry	108	1.Chinna Maruvedian s/o Kunji Gounder 2.Mani s/o Chinnasami
				85/4 (Part)	85/ 4B	Private	Dry	2160	1. Chinna Maruvedian s/o Kunji Gounder 2.Arivazhagan s/o Periyasami 3.Mariappan s/o Periyasami 4.Perumal s/o Chinna Maruvedhiyan @ Mariyappa Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				86/1	86/ 1	Private	Dry	2450	1. Chinna Maruvedian s/o Kunji Gounder 2. Arivazhagan s/o Periyasami 3. Mariappan s/o Periyasami 4. Perumal s/o Chinna Maruvedhiyan @ Mariyappa Gounder
				86/2A (Part)	86/ 2A1	Private	Dry	1375	1. Kumarasami s/o Kumarasami 2. Sundaramogan s/o Kumarasami
				86/2B (Part)	86/ 2B1	Private	Dry	218	Chinnasami s/o Sevvai
				87/1B (Part)	87/ 1B2	Private	Dry	32	1. Varadhan s/o Chinna Boodhala Gounder 2. Varadhan s/o Bhooghala Gounder
				87/1C	87/ 1C	Private	Dry	750	1. Varadhan s/o Kunji Gounder 2. Arivazhagan s/o Periyasami 3. Mariappan s/o Periyasami 4. Perumal s/o Chinna Maruvedhiyan @ Mariyappa Gounder
				87/2A (Part)	87/ 2A1	Private	Dry	100	1. Kumarasami s/o Kumarasami 2. Sundaramogan s/o Kumarasami
				87/2D (Part)	87/2D1	Private	Dry	44	1. Kumarasami s/o o Vathalan @ Boodhala Gounder 2. Chinnasami s/o Sevvai 3. Kili s/o Sevvai
				88 (Part)	88/2	Government	Road	3800	Government
				91/1 (Part)	91/ 1A	Private	Dry	250	Gopal s/o Elayaperumal
				91/2 (Part)	91/2A	Private	Dry	1560	Gopal s/o Elayaperumal
				94/1 (Part)	94/ 1B	Private	Dry	186	Mani s/o Madhan
				94/2 (Part)	94/2B	Private	Dry	633	Chinnadurai s/o Kuppa Gounder
				94/3 (Part)	94/ 3B	Private	Dry	1395	1. Lakshmanan s/o Molai Gounder 2. Madhu s/o Lakshmanan
				94/4 (Part)	94/4A	Private	Dry	1266	1. Mosal s/o Molai Gounder 2. Ravi s/o Govindhan
				94/5 (Part)	94/5A/	Private	Dry	823	1. Munia Gounder s/o Rama Gounder 2. Periyasami s/o Munia Goundaer
				95/1B (Part)	95/ 1B1	Private	Dry	2273	1. Kannan s/o Konakalan @ Perumal 2. Ganesan s/o Kannan 3. Budhan @ Kuppa Gounder s/o Kannan
				95/1C (Part)	95/1C1	Private	Dry	23	Ramesh s/o Krishnan
				96/1A (Part)	96/ 1A2	Private	Dry	1080	1. Munia Gounder s/o Kuppa Gounder 2. Perumal s/o Molaya Gounder @ Vaguthan
				96/1B (Part)	96/ 1B2	Private	Dry	1405	Chinnakannu s/o Kuppa Gounder
				96/2A (Part)	96/ 2A2	Private	Dry	2500	1. Munia Gounder s/o Kuppa Gounder 2. Govindharaj s/o Mottan @ Annamalai
				96/3C (Part)	96/ 3C2	Private	Dry	863	Dhavamani s/o Rama Gounder
				96/3D (Part)	96/ 3D1	Private	Dry	1083	1. Kannan s/o Kuppa Gounder 2. Ganesan s/o Kannan
				96/3E (Part)	96/ 3E1	Private	Dry	65	Savidhiri w/o Rathinavel
				100/3B (Part)	100/3B3B	Private	Dry	116	Sivaji s/o Genga Gounder
					100/3B4B	Private	Dry	1700	1. Gengan s/o Gengan 2. Gengan s/o Muthu Gounder
				100/3C	100/ 3C	Private	Dry	1400	Gopal s/o Ilyaperumal
				100/3D	100/3D	Private	Dry	700	Gopal s/o Ilyaperumal
			(3) Hale Dharmapuri	5/1 (Part)	5/1A	Private	Wet	1830	1. Pattu @ Pachai Udayar s/o Kppu Udayar 2. Subbiramani s/o Pattu @ Pachai Udayar
				5/2A (Part)	5/2A1	Private	Wet	1	Poongodi w/o Vajiram
				6 (Part)	6/2	Private	Wet	2250	1. Muthappa Chetti s/o Nanjunda Chetti 2. Pirakash s/o Muthappa Chetti 3. Mohan s/o Muthappa Chetti 4. Logu s/o Muthappa Chetti
				11/1 (Part)	11/1A	Private	Wet	360	1. Raja Udayar s/o Appavu Udayar 2. Patti @ Pachai Udayar s/o Kuppa Udayar 3. Unnamalai w/o Ganesan 4. Mohan s/o Ganesa Udayar 5. Poongodi w/o Vajiram

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								6.Mohan s/o Raja Udayar 7.Anbalagan s/o Raja Udayar 8.Rathinasami s/o Raja Udayar 9.Baskar s/o Raja Udayar 10.Subramani s/o Pattu @ Pachai Udayar
				11/2 (Part)	11/2A	Private	Wet	40 1.Pattu @ Pachai Udayar s/o Kppu Udayar 2.Subbiramani s/o Pattu @ Pachai Udayar
				10 (Part)	10/1	Private	Wet	1500 Gnanasekaran s/o Sivalingam
				250/1 (Part)	250/1B	Private	Wet	1100 1. Sithammal w/o Muthappa Chetti 2..Pirakash s/o Muthappa Chetti 3.Mogan s/o Muthappa Chetti 4.Logu s/o Muthappa Chetti
				250/2	250/ 2	Private	Wet	850 Gnanasekaran s/o Sivalingam
				9 (Part)	9/2	Private	Wet	3600 1.Sithammal w/o Muthappa Chettiyar 2..Pirakash s/o Muthappa Chetti 3.Mogan s/o Muthappa Chetti 4.Logu s/o Muthappa Chetti
				30 (Part)	30/1	Private	Wet	1600 Thangaraji s/o Venkatraman
				254/1	254/ 1	Private	Wet	750 Thangaraji s/o Venkatraman
				254/2A (Part)	254/2A2	Private	Wet	303 1.Devendran s/o Govinda Gounder 2.Raja s/o Govinda Gounder
				254/2B (Part)	254/2B2	Private	Wet	380 1.Kannu Paiyan s/o Perumal Gounder 2.Solaraj s/o Perumal Gounder 3.Munusamy s/o Govinda Gounder 4.Venkataraman s/o Govinda Gounder 5.Devendran s/o Govinda Gounder 6.Raja s/o Govinda Gounder
				255/2 (Part)	255/2B	Private	Wet	1 1.Kannu Paiyan s/o Perumal Gounder 2.Raja s/o Govinda Gounder
				31/1 (Part)	31/1B	Private	Dry	1600 Thirunavukarasu s/o K.S.Jagadesa Udayar
				31/2 (Part)	31/2B	Private	Dry	960 Kutti @ Boothalan s/o Boothala Gounder
				31/3 (Part)	31/3B	Private	Dry	2127 Vellakaran @ Perumal s/o Miyan @ Munia Gounder
				31/4 (Part)	31/4A	Private	Dry	1240 Vediappan s/o Periya Vediappan
				31/5 (Part)	31/ 5A	Private	Dry	237 Kutti @ Boothalan s/o Boothala Gounder
				29/1A	29/ 1A	Private	Dry	1000 1.Venkatraman s/o Govinda Gounder 2.Thangaraj s/o Venkataraman
				29/1B (Part)	29/ 1B1	Private	Dry	691 1.Raja s/o Govinda Gounder 2.Thangaraj s/o Venkatraman
				29/1C (Part)	29/1C1	Private	Dry	530 1.Devendran s/o GovindaGounder 2.Thangaraj s/o Venkatraman
				29/1D (Part)	29/ 1D1	Private	Dry	480 1.Munusamy s/o Govinda Gounder 2.Thangaraj s/o Venkatraman
				29/1E (Part)	29/ 1E1	Private	Dry	389 Govindan s/o Munia Gounder
				29/2	29/2	Private	Wet	450 1.Venkataraman s/o Govinda Gounder 2.Thangaraj s/o Venkatraman
				28/2	28/ 2	Private	Wet	200 Vellakaran @ Perumal s/o Miyan @ Munia Gounder
		(4) Dharmapuri Town	16/7 (Part)	16/7A	Private	Dry	1219 1.Perumal s/o Kannu Gounder 2.Govindasami s/o Perumal	
		(5) Vellegoundan palayam	612 (Part)	612/2	Government	Oni	8/2	Government
			619/1 (Part)	619/1A	Private	Dry	3650 1 Pandu rangam s/o Eliappa Reddi 2.Venkatesan s/o Eliappa Reddi 3.Perumal s/o Kuppa Gounder	
				619/1B1	Private	Dry	655 1..Arumugam s/o Rama Gounder 2 Palaniammal w/o Arumugam	
			620/4 (Part)	620/4B	Private	Dry	714 Rangammal w/o Chinnaiya Reddi	
			621/1 (Part)	621/1B	Private	Dry	1242 1.Govindasamy s/o Narashimha Reddi 2.Kandhan s/o Kuppusamireddi	
			621/2 (Part)	621/ 2B	Private	Dry	2036 Govindan s/o Vengattareddi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				621/3 (Part)	621/ 3B2	Private	Dry	3160 1.Govindammal w/o Purusothaman 2.Nanthakumar s/o Purusothaman
				623/1 (Part)	623/1B	Private	Dry	1338 Mariappa Gounder s/o Periathanappa Gounder
				623/3A (Part)	623/3A2	Private	Dry	300 1.Govindasamy s/o Nrasimha chetti 2. Chinnsamy s/o Siddhu Reddi 3.Madhareddi s/o Veerareddi 4.Narashimmareddi s/o Narashimma Chetti
				623/3B (Part)	623/3B2	Private	Dry	797 Gopal s/o Karian @ Perumal
				623/3C (Part)	623/3C1	Private	Dry	850 Vadivel s/o Jadaia Gounder
				624/1 (Part)	624/1A	Private	Dry	530 1.Jayaseelan s/o Venkatesan 2.Sundaram s/o Venkatesan
				624/4	624/4	Private	Dry	150 Narashimmareddi s/o Chinasamireddi
				626/1 (Part)	626/ 1A	Private	Dry	1410 Murugan s/o Raji
				626/3 (Part)	626/3B	Private	Dry	1790 Shanmugam s/o Muthu
				645 (Part)	645/1	Private	Dry	3628 1.Raji s/o Arumugam 2.Ponnusami s/o Mari Gounder
				647/1 (Part)	647/1A	Private	Dry	1485 Subramani @ Singaram s/o Marimuthu
				647/2 (Part)	647/ 2A	Private	Dry	2183 1.Shanmugam s/o Subramani 2.Subramani @ Singaram s/o Marimuthu
				652/1 (Part)	652/1B	Private	Dry	1250 1.Jayaseelan s/o Venkatesan 2.Sundaram s/o Venkatesan
				652/2 (Part)	652/2B	Private	Dry	980 1.Sulochana s/o Venkata Reddi 2.Sujatha w/o Padmanaban
				652/3 (Part)	652/3A2	Private	Dry	1200 Narashimmareddi s/o Chinasamireddi
					652/3B	Private	Dry	50 Chennaiyareddi s/o Venkattareddi
		(6) Virupakshi- puram		492/1	492/1	Private	Dry	1300 Mallukuttiyan @ Venkatraman s/o Nadu Kariyan
				492/2 (Part)	492/2B	Private	Dry	8350 1.Muniappa Gounder s/o Perumal Gounder 2.Dhanapat s/o Muniappa Gounder 3.Goviadasami s/o Muniappa Gounder 4.Madhaiyan s/o Nagappa Gounder
				492/3 (Part)	492/ 3A	Private	Dry	481 1.Rukkammal w/o Venkattappa Reddi 2.Muniammal w/o Jeyabai 3.Amutha w/o Sivabalan
				494/1 (Part)	494/1B	Private	Dry	1751 1.Kallammal w/o Kunji @ Ramasami Reddi 2.Krishnamoorthi s/o Kunji @ Ramasami Reddi 3.Gopal s/o Kunji @ Ramasami Reddi
				494/2 (Part)	494/2B	Private	Dry	1691 Lakshimiammal w/o Kuppusami Reddi
				494/3 (Part)	494/3B	Private	Dry	791 1.Obi Reddi s/o Vera Reddi 2.Gopal s/o Ranga Gounder
				494/4 (Part)	494/4B	Private	Dry	809 Madha Reddi s/o Veera Reddi
				497/1 (Part)	497/ 1B	Private	Dry	1377 1.Gopal s/o Obi Reddi 2.Lakshmi w/o Gopal 3.Muniraj s/o Gopal
				497/2 (Part)	497/2B	Private	Dry	1346 1.Chinnaraj Reddi s/o Obi Reddi 2.Padmanaban s/o Obi Reddi 3. Dhanasekara s/o Obi Reddi 4. MadaReddi s/o Obi Reddi 5.Andal w/o Govindan
				498/2B (Part)	498/ 2B2	Private	Dry	717 1.Gopal s/o Govindan 2.Chinnathambi s/o Govindan 3.Gunasekaran s/o Kandasamy 4. Udayakumar s/o kandasamy 5. Sivakami D/o Kandasamy 6. Rajammal w/o Pachaiappan 7.Kamala w/o Krishnan
				498/2C	498/2C	Private	Dry	1400 1Chinnsami s/o Kaliappan 2. Murugesan s/o Chinnasami 3.Sivan s/o Chinnasami
				498/2D	498/ 2D	Private	Dry	1350 1.Kannu s/o Perumal(a)Kaliappan. 2 Rajammal w/o Kannu 3.Govindarasu s/o Kannu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								4.Kathirvelu s/o Kannu 5.Raji s/o Kannu 6.Thangavel s/o Kannu
				498/2E	498/2E	Private	Dry	1350 1.Gopal s/o Pullu Gounder 2.Mogana w/o Periyasami 3.Vijaya d/o Periyasami 4.Arunkumar s/o Periyasami
				498/2F (Part)	498/2F1	Private	Dry	590 1.Chinnasamy s/o Mathan 2.Kasi s/o Chinnasami
				507/2A (Part)	507/2A2	Private	Dry	3424 1.Srinivasan s/o Ponnusami Reddi 2.Palaniammal w/o Jayakrishnan 3.Murugammal w/o Kubendiran 4.Basavaraj s/o Poosami Mariappan
				507/2B (Part)	507/2B1	Private	Dry	989 1.Gopal Reddi s/o Narashimha Reddi 2.Jaya w/o V.M.Basavaraj 3.Gopala Krishnan s/o Chinnasamy 4.Palaniammal w/o Sivakumar 5.Narmadha w/o Mayan 6.Kanchamalai s/o Gowrappan 7.Kala w/o Ramasamy 8.Krishnan w/o Ellappillai 9.Kalaarasu s/o Ramakrishnan 10.Jayalakshmi w/o Govindaraj
				507/2C (Part)	507/2C1	Private	Dry	967 1.Appusamy Reddi s/o Narashimha Reddi 2.Jayalakshmi w/o Kaveriappan
				507/2D (Part)	507/2D2	Private	Dry	1100 1.Appusamy Reddi s/o Narashima Reddi 2.Kaliammal w/o Appavu 3.Kaliammal w/o Subramani 4.Jalakshmi w/o Kaveriappan
				508/1A (Part)	508/1A2	Private	Dry	4550 1.Sujatha w/o Venu Gopal 2.Jayalakshmi w/o Kaveriappan
				508/1B (Part)	508/1B2	Private	Dry	2053 1.Vimala w/o Murugesan 2.Ananthi w/o Muniraj 3.Vediappan s/o Muniappan 4.Rajeswari D/o Gundaliyar 5.Sreedhar s/o Venkataraman 6.Sabeya Begam w/o Abdul Kadhar 7.Shanthi w/o Chinnasamy
				508/2 (Part)	508/2A	Private	Dry	106 Srinivasan s/o Raji Reddi
				513/1 (Part)	513/1B	Private	Dry	1550 1.Muniappa Gounder s/o Perumal Gounder 2.Dhanapal s/o Muniappa Gounder 3.Govinda samy s/o Muniappa Gounder 4.Madhiyan s/o Nagappa Gounder 5.Chinnapaiya Gounder s/o Perumal Gounder 6.ChellaJutti s/o Perumal Gounder
				513/2 (Part)	513/2 A1B	Private	Dry	450 1.Molagan @ Chinnapaiyan s/o Kaliappan 2.V.M.Basuvaraj s/o Mariappa Gounder 3.Kangam w/o Muthu @ Raju 4.Indhirani w/o Andi Kalavathi w/o Natarajan
					513/2A2B	Private	Dry	178 Chennammal D/o Kuppusamy
					513/2B2	Private	Dry	34 Viswanathan s/o Kuppusamy
					513/2C	Private	Dry	200 Madhan s/o Chinnasamy
					513/2D	Private	Dry	350
				513/3 (Part)	513/3A	Private	Dry	1350 Givindammal w/o Munusamy
				513/4 (Part)	513/4A	Private	Dry	360 1.Chinnasamy s/o Mattukaran 2.Chinnammal w/o Chinnasamy 3.Govindaraj s/o Chinnasamy
				575/1D (Part)	575/1D2	Private	Dry	800 1.Gopal s/o Govindan 2.Chinnathambi s/o Govindan 3.Gunsekarana s/o Kanda samy 4.Udaya Kumar s/o Kandasamy 5.Sivakamy D/o Kandasamy 6.Vadivel s/o Gopal
				575/1E1	575/1E1	Private	Dry	250 1.Kaliammal w/o Kannu 2.Muthu s/o Kannu 3.K.Mani s/o Kannu 4.Ruckmankathan s/o Kannu 5.Venkatesan s/o Kannu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									6. Govindammal D/o Kannu 7. Gopal s/o Govindan 8. Govindan s/o Puddan 9. Chinnathambi s/o Govindan 10. Gunasekaran s/o Kandasamy 11. Udayakumar s/o Kandasamy 12. Sivakamy d/o Kandasamy 13. Bharathi w/o Chinnathambi 14. Vadivel s/o Gopal
				575/1E2	575/1E2	Private	Dry	150	Bharathi w/o Chinnathambi
				575/1E3	575/1E3	Private	Dry	100	Govindan s/o Puddan
				575/1F1B (Part)	575/6	Private	Dry	7	N.M. Arun s/o D.N. Madhiya Krishnan
				575/1F1D (Part)	575/8	Private	Dry	238	N.M. Arun s/o D.N. Madhiya Krishnan
				575/1F1E (Part)	575/9	Private	Dry	270	N.M. Arun s/o D.N. Madhiya Krishnan
				575/1F1F	575/1F1F	Private	Dry	150	Sendrayan s/o Perumal
				575/1F1G	575/1F1G	Private	Dry	100	1. Kaliammal w/o Kapnu 2. Moorthi s/o Kannu 3. Mani S/o Kannu 4. Bharathi w/o Chinnathambi 5. N.M. Arun s/o D.N. Madhiya Krishnan
				575/3	575/3	Private	Dry	250	Bharathi w/o Chinnathambi
				575/4	575/4	Private	Dry	100	Govindan s/o Puddan
				575/5	575/5	Private	Dry	450	Periyasamy s/o Ellappa Gounder
				575/1F1H	575/1F1H	Private	Dry	50	N.M. Arun s/o D.N. Madhiya Krishnan
				575/1F2	575/1F2	Private	Dry	80	Subramani s/o Kannu Gounder
				575/1G2	575/1G2	Private	Dry	146	Ellappa Gounder s/o Matha Gounder
				575/1G3	575/1G3	Private	Dry	104	Periyasamy s/o Ellappa Gounder
				575/1G4 (Part)	575/1G4A	Private	Dry	48	Thagavel s/o Ellappa Gounder
				575/1H (Part)	575/1H2	Private	Dry	900	1. Ellappa Gounder s/o Mathan 2. Kannu s/o Alli 3. Chinnasamy s/o Perumal 4. Kannu s/o Kallappan 5. Venkatesan s/o Perumal
				575/1J (Part)	575/1J2	Private	Dry	21	1. Chinnasamy s/o Kallappan 2. Ramachandran s/o Chinnasamy 3. Murugan s/o Chinnasamy 4. Sivan s/o Chinnasamy
				575/1K1	575/1K1	Private	Dry	500	1. Gopal s/o Govindan 2. Chinnathambi s/o Govindan 3. Gunasekaran s/o Kandasamy 4. Udayakumar s/o Kandasamy 5. Sivakamy d/o Kandasamy 6. Vadivel S/o Gopal
				575/1K2	575/1K2	Government	Road for Adi-dravida village site	100	Government
				575/1K3	575/1K3	Private	Dry	200	1. Gopal s/o Govindan 2. Chinnathambi s/o Govindan 3. Gunasekaran s/o Kandasamy 4. Udayakumar s/o Kandasamy 5. Sivakamy d/o Kandasamy 6. Vadivel S/o Gopal
				576/1A	576/1A	Private	Dry	700	Govindan s/o Puddan
				576/1B (Part)	576/2	Government	Adi-dravida village site	5500	Government
				577 (Part)	577/2	Private	Wet	750	Govindan s/o Puddan
				578/1 (Part)	578/1B	Private	Wet	296	Govindan s/o Puddan
				578/2 (Part)	578/2B	Private	Wet	25	1. Mariappan s/o Govindan 2. Palani s/o Govindan 3. Raja Gopal s/o Govindan
				579 (Part)	579/2	Private	Wet	483	1. Mariappan s/o Govindan 2. Palani s/o Govindan 3. Raja Gopal s/o Govindan
				569/1 (Part)	569/3	Government	Well	2150	Government
				569/2 (Part)	569/2B	Private	Dry	262	1. Nadhan s/o Lakshmi Reddi 2. Chennaiyan s/o Munusamy Reddi 3. Chennkesavan s/o Venkataraman 4. Dhanaraj s/o Thoppikan @ Chinnasamy 5. Sanjeevan s/o Appavu Gounder

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				570/1	570/1	Private	Dry	600	1.Chennaiyan s/o Venkataraman 2.Murugan s/o Shanmugam
				570/2 (Part)	570/2 A	Private	Dry	587	1.Dhanaraj s/o Thoppikan @ Chinnasamy 2. Murugan s/o Shanmugam
				571/1 (Part)	571/1A	Private	Dry	183	1.Nadhan s/o Lakshmi Reddi 2.Chennaiyan s/o Munusamy Reddi 3.Chennakesavan s/o Venkataraman 4.Dhanaraj s/o Thoppikan @ Chinnasamy 5.Sanjeevan s/o Appavu Gounder
				571/2 (Part)	571/2A	Private	Dry	1557	1.Sanjeevan s/o Appavu Gounder 2.Ranganathan s/o Sanjeevan
				571/3	571/3	Private	Dry	850	1.Nadhan s/o Lakshma Reddi 2.Sanjeevan s/o Appavu
				568 (Part)	568 /2	Private	Wet	1000	1.Nadhan s/o Lakshmi Reddi 2.Chennaiyan s/o Munusamy Reddi 3.Chennakesavan s/o Venkataraman 4.Dhanaraj s/o Thoppikan @ Chinnasamy 5.Sanjeevan s/o Appavu Gounder
			(7) A. Jettihalli	91/1	91/1	Private	Dry	350	Subbiramani s/o Vaiyaburi
				91/2	91/2	Private	Dry	450	1.Krishnan s/o Kaveri 2. Kaveri s/o Krishnan
				91/3	91/3	Private	Dry	150	1.Kaliammal w/o Kandan 2.Kaliappan s/o Vaiyaburi
				91/4	91/4	Private	Dry	600	Pandiyan s/o Kaliappan
				91/8 (Part)	91/8A	Private	Dry	180	Kaliappan s/o Vaiyaburi
				91/9 (Part)	91/9A	Private	Dry	840	1.Krishnan s/o Kaveri 2.Kaveri s/o Krishnan
				91/10	91/10	Private	Dry	300	Kaliappan s/o Vaiyaburi
				91/11 (Part)	91/ 11A	Private	Dry	30	Subbiramani s/o Vaiyaburi
				91/12	91/12	Private	Dry	1100	Kaliappan s/o Vaiyaburi
				91/13 (Part)	91/13A	Private	Dry	900	Pandiyan s/o Kaliappan
				108 (Part)	108 /2	Private	Dry	1050	Mariappan s/o Idumban

[F. No. NHAI/Tech/LA/KT/Dharmapuri 3(A)11/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2007

का.आ. 274(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1356 (अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 24 अगस्त, 2006 में प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,

(क) तालुक “पालाकोडी” के सामने,-

(i) गाँव “(1) कुम्बराहल्ली” के सामने,-

(क) सर्वेक्षण संख्या “235 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “5458” के स्थान पर प्रविष्टि “5459” रखी जाएगी;

(ख) सर्वेक्षण संख्या “237/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “4462” के स्थान पर प्रविष्टि “4472” रखी जाएगी;

- (ग) सर्वेक्षण संख्या “238/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “700” के स्थान पर प्रविष्टि “701” रखी जाएगी;
- (घ) सर्वेक्षण संख्या “434/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1285” के स्थान पर प्रविष्टि “1387” रखी जाएगी;
- (ङ.) सर्वेक्षण संख्या “434/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “130” के स्थान पर प्रविष्टि “150” रखी जाएगी;
- (ii) गाँव “(2) कारीमंगलम” के सामने,-
- (क) सर्वेक्षण संख्या “4/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “593” के स्थान पर प्रविष्टि “595” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “4/6 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1154” के स्थान पर प्रविष्टि “1158” रखी जाएगी;
- (ग) सर्वेक्षण संख्या “5/5 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “252” के स्थान पर प्रविष्टि “260” रखी जाएगी;
- (घ) सर्वेक्षण संख्या “7/2एफ [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “648” के स्थान पर प्रविष्टि “652” रखी जाएगी;
- (ङ.) सर्वेक्षण संख्या “7/2जी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “752” के स्थान पर प्रविष्टि “796” रखी जाएगी;
- (च) सर्वेक्षण संख्या “11/1सी2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “850” के स्थान पर प्रविष्टि “920” रखी जाएगी;
- (छ) सर्वेक्षण संख्या “11/1सी3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “200” के स्थान पर प्रविष्टि “213” रखी जाएगी;
- (ज) सर्वेक्षण संख्या “12/1ए1ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1620” के स्थान पर प्रविष्टि “1653” रखी जाएगी;
- (झ) सर्वेक्षण संख्या “12/1ए2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “46” के स्थान पर प्रविष्टि “47” रखी जाएगी;
- (ट) सर्वेक्षण संख्या “13/1ए1बी [भाग]” और स्तम्भ 6, 7 और 8 में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टियाँ क्रमशः रखी जाएंगी,-

5	6	7	8
“13/1ए1बी (भाग)	निजी	मकान	178”

- (ठ) सर्वेक्षण संख्या “13/1ए2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “524” के स्थान पर प्रविष्टि “535” रखी जाएगी;
- (ड) सर्वेक्षण संख्या “16/1ए4बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “540” के स्थान पर प्रविष्टि “584” रखी जाएगी;
- (ढ) सर्वेक्षण संख्या “16/1बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “120” के स्थान पर प्रविष्टि “156” रखी जाएगी;
- (ण) सर्वेक्षण संख्या “28/2सी1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “132” के स्थान पर प्रविष्टि “134” रखी जाएगी;

- (त) सर्वेक्षण संख्या “29/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “700” के स्थान पर प्रविष्टि “729” रखी जाएगी;
- (थ) सर्वेक्षण संख्या “49/1ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1028” के स्थान पर प्रविष्टि “1043” रखी जाएगी;
- (द) सर्वेक्षण संख्या “83/3डी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “2” के स्थान पर प्रविष्टि “3” रखी जाएगी;
- (ध) सर्वेक्षण संख्या “83/3के [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1” के स्थान पर प्रविष्टि “4” रखी जाएगी;
- (न) सर्वेक्षण संख्या “94/35 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “50” के स्थान पर प्रविष्टि “210” रखी जाएगी;
- (प) सर्वेक्षण संख्या “95/25 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “88” के स्थान पर प्रविष्टि “98” रखी जाएगी;
- (फ) सर्वेक्षण संख्या “101/2बी2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “330” के स्थान पर प्रविष्टि “332” रखी जाएगी;
- (ब) सर्वेक्षण संख्या “555/1एफ [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “251” के स्थान पर प्रविष्टि “252” रखी जाएगी;
- (भ) सर्वेक्षण संख्या “557/11 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “750” के स्थान पर प्रविष्टि “800” रखी जाएगी;
- (ख) तालुक “धर्मापुरी” के सामने,—
- (i) गाँव “(1) कोनंगीनायकनहल्ली” के सामने,—
- (क) सर्वेक्षण संख्या “18/1बी1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “456” के स्थान पर प्रविष्टि “480” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “22/2ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1550” के स्थान पर प्रविष्टि “1570” रखी जाएगी;
- (ग) सर्वेक्षण संख्या “26/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “200” के स्थान पर प्रविष्टि “216” रखी जाएगी;
- (घ) सर्वेक्षण संख्या “36/ए1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “100” के स्थान पर प्रविष्टि “107” रखी जाएगी;
- (ii) गाँव “(2) हाली धर्मापुरी” के सामने, सर्वेक्षण संख्या “28/1ए [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “233” के स्थान पर प्रविष्टि “278” रखी जाएगी;
- (iii) गाँव “(3) नाडुहल्ली” के सामने,—
- (क) सर्वेक्षण संख्या “10/1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “130” के स्थान पर प्रविष्टि “147” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “11/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “50” के स्थान पर प्रविष्टि “54” रखी जाएगी;
- (ग) सर्वेक्षण संख्या “11/9 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “400” के स्थान पर प्रविष्टि “426” रखी जाएगी;
- (घ) सर्वेक्षण संख्या “12/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “270” के स्थान पर प्रविष्टि “288” रखी जाएगी;
- (ड.) सर्वेक्षण संख्या “12/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “100” के स्थान पर प्रविष्टि “120” रखी जाएगी;

- (च) सर्वेक्षण संख्या "17/1डी [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "2695" के स्थान पर प्रविष्टि "2699" रखी जाएगी;
- (छ) सर्वेक्षण संख्या "20/1ए2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1055" के स्थान पर प्रविष्टि "1108" रखी जाएगी;
- (ज) सर्वेक्षण संख्या "20/1ए3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "80" के स्थान पर प्रविष्टि "83" रखी जाएगी;
- (झ) सर्वेक्षण संख्या "20/1बी1बी [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1200" के स्थान पर प्रविष्टि "1225" रखी जाएगी;
- (ट) सर्वेक्षण संख्या "21/1डी [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1100" के स्थान पर प्रविष्टि "1125" रखी जाएगी;
- (ठ) सर्वेक्षण संख्या "35/1ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "305" के स्थान पर प्रविष्टि "368" रखी जाएगी;
- (ड) सर्वेक्षण संख्या "36/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "2750" के स्थान पर प्रविष्टि "2875" रखी जाएगी;
- (ढ) सर्वेक्षण संख्या "36/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "2400" के स्थान पर प्रविष्टि "2420" रखी जाएगी;
- (ण) सर्वेक्षण संख्या "36/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "750" के स्थान पर प्रविष्टि "780" रखी जाएगी;
- (त) सर्वेक्षण संख्या "36/4 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "500" के स्थान पर प्रविष्टि "580" रखी जाएगी;
- (थ) सर्वेक्षण संख्या "73/7 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "180" के स्थान पर प्रविष्टि "195" रखी जाएगी;
- (द) सर्वेक्षण संख्या "74/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "400" के स्थान पर प्रविष्टि "1300" रखी जाएगी;
- (ध) सर्वेक्षण संख्या "74/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1350" के स्थान पर प्रविष्टि "1400" रखी जाएगी;
- (न) सर्वेक्षण संख्या "74/4 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1294" के स्थान पर प्रविष्टि "1350" रखी जाएगी;
- (प) सर्वेक्षण संख्या "75/1 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "3150" के स्थान पर प्रविष्टि "3220" रखी जाएगी;
- (फ) सर्वेक्षण संख्या "75/2 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1450" के स्थान पर प्रविष्टि "1520" रखी जाएगी;
- (ब) सर्वेक्षण संख्या "85/3 [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "25" के स्थान पर प्रविष्टि "26" रखी जाएगी;
- (भ) सर्वेक्षण संख्या "87/1डी [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "380" के स्थान पर प्रविष्टि "550" रखी जाएगी;
- (म) सर्वेक्षण संख्या "95/1ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "1400" के स्थान पर प्रविष्टि "1470" रखी जाएगी;
- (य) सर्वेक्षण संख्या "95/2ए [भाग]" के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि "570" के स्थान पर प्रविष्टि "640" रखी जाएगी;

- (र) सर्वेक्षण संख्या “95/2बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1255” के स्थान पर प्रविष्टि “1274” रखी जाएगी;
- (ल) सर्वेक्षण संख्या “95/2सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “20” के स्थान पर प्रविष्टि “37” रखी जाएगी;
- (व) सर्वेक्षण संख्या “96/1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “145” के स्थान पर प्रविष्टि “160” रखी जाएगी;
- (iv) गाँव “(4) धर्मापुरी टाउन” के सामने, -
- (क) सर्वेक्षण संख्या “16/8 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “699” के स्थान पर प्रविष्टि “1021” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “16/9 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “404” के स्थान पर प्रविष्टि “522” रखी जाएगी;
- (v) गाँव “(5) वेल्लीगोंडनपलायम” के सामने, -
- (क) सर्वेक्षण संख्या “623/2 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “2490” के स्थान पर प्रविष्टि “2496” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “624/3 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “2178” के स्थान पर प्रविष्टि “2247” रखी जाएगी;
- (vi) गाँव “(6) विरुपाक्षीपुरम” के सामने, -
- (क) सर्वेक्षण संख्या “514/1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “2900” के स्थान पर प्रविष्टि “2944” रखी जाएगी;
- (ख) सर्वेक्षण संख्या “514/2बी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “700” के स्थान पर प्रविष्टि “740” रखी जाएगी;
- (ग) सर्वेक्षण संख्या “575/1एफ1सी [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “111” के स्थान पर प्रविष्टि “115” रखी जाएगी;
- (घ) सर्वेक्षण संख्या “575/1जी1 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “2000” के स्थान पर प्रविष्टि “2083” रखी जाएगी;
- (ङ.) सर्वेक्षण संख्या “575/1एल [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “500” के स्थान पर प्रविष्टि “593” रखी जाएगी;
- (च) सर्वेक्षण संख्या “567 [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “1600” के स्थान पर प्रविष्टि “1650” रखी जाएगी;
- (छ) सर्वेक्षण संख्या “589/2ई [भाग]” के सामने, स्तम्भ 8 में, प्रविष्टि “16” के स्थान पर प्रविष्टि “25” रखी जाएगी।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन मूल अधिसूचना में उल्लिखित प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/केटी/धर्मापुरी 3(ए) 11/2007]

प्रभाकर, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 24 अगस्त, 2006 में का.आ. 1356(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2007

S.O. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.1356 (E), dated the 24th August, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th August, 2006, namely:-

In the Schedule to the said notification;-

- (a) against Taluk "Palacode", -
- (i) against village "(1) Kumbarahalli", -
 - (A) against Survey number "235[Part]", in column 8, for the entry "5458", the entry "5459" shall be substituted;
 - (B) against Survey number "237/1[Part]", in column 8, for the entry "4462", the entry "4472" shall be substituted;
 - (C) against Survey number "238/1[Part]", in column 8, for the entry "700", the entry "701" shall be substituted;
 - (D) against Survey number "434/1[Part]", in column 8, for the entry "1285", the entry "1387" shall be substituted;
 - (E) against Survey number "434/2 [Part]", in column 8, for the entry "130", the entry "150" shall be substituted;
- (ii) against village "2) Karimangalam", -
 - (A) against Survey number "4/3(Part)", in column 8, for the entry "593", the entry "595" shall be substituted;
 - (B) against Survey number "4/6(Part)", in column 8, for the entry "1154", the entry "1158" shall be substituted;
 - (C) against Survey number "5/5(Part)", in column 8, for the entry "252", the entry "260" shall be substituted;
 - (D) against Survey number "7/2F(Part)", in column 8, for the entry "648", the entry "652" shall be substituted;
 - (E) against Survey number "7/2G(Part)", in column 8, for the entry "752", the entry "796" shall be substituted;
 - (F) against Survey number "11/1C2(Part)", in column 8, for the entry "850", the entry "920" shall be substituted;

- (G) against Survey number "11/1C3(Part)", in column 8, for the entry "200", the entry "213" shall be substituted;
- (H) against Survey number "12/1A1A(Part)", in column 8, for the entry "1620", the entry "1653" shall be substituted;
- (I) against Survey number "12/1A2(Part)", in column 8, for the entry "46", the entry "47" shall be substituted;
- (J) for Survey number "13/1A1B(Part)", and the entries relating thereto in columns 6, 7 & 8, the following Survey numbers and entries shall respectively be substituted, namely;

5	6	7	8
"13/1A1B (Part)	Private	House Site	178";

- (K) against Survey number "13/1A2(Part)", in column 8, for the entry "524", the entry "535" shall be substituted;
- (L) against Survey number "16/1A4B(Part)", in column 8, for the entry "540", the entry "584" shall be substituted;
- (M) against Survey number "16/1B(Part)", in column 8, for the entry "120", the entry "156" shall be substituted;
- (N) against Survey number "28/2C1(Part)", in column 8, for the entry "132", the entry "134" shall be substituted;
- (O) against Survey number "29/1(Part)", in column 8, for the entry "700", the entry "729" shall be substituted;
- (P) against Survey number "49/1A(Part)", in column 8, for the entry "1028", the entry "1043" shall be substituted;
- (Q) against Survey number "83/3D(Part)", in column 8, for the entry "2", the entry "3" shall be substituted;
- (R) against Survey number "83/3K(Part)", in column 8, for the entry "1", the entry "4" shall be substituted;
- (S) against Survey number "94/35(Part)", in column 8, for the entry "50", the entry "210" shall be substituted;
- (T) against Survey number "95/25(Part)", in column 8, for the entry "88", the entry "98" shall be substituted;
- (U) against Survey number "101/2B2(Part)", in column 8, for the entry "330", the entry "332" shall be substituted;
- (V) against Survey number "555/1F(Part)", in column 8, for the entry "251", the entry "252" shall be substituted;

- (W) against Survey number "557/11(Part)", in column 8, for the entry "750", the entry "800" shall be substituted;

(b) against Taluk "Dharmapuri", -

(i) against village "(1) Konanginaickanahalli", -

- (A) against Survey number "18/1B1(Part)", in column 8, for the entry "456", the entry "480" shall be substituted;
- (B) against Survey number "22/2A(Part)", in column 8, for the entry "1550", the entry "1570" shall be substituted;
- (C) against Survey number "26/2(Part)", in column 8, for the entry "200", the entry "216" shall be substituted;
- (D) against Survey number "36/A1(Part)", in column 8, for the entry "100", the entry "107" shall be substituted;

(ii) against village "(2) Hale Dharmapuri", against Survey number "28/1A(Part)", in column 8 for the entry "233, the entry "278" shall be substituted;

(iii) against village "(3) Naduhalli", -

- (A) against Survey number "10/1C(Part)", in column 8, for the entry "130, the entry "147" shall be substituted;
- (B) against Survey number "11/2(Part)", in column 8, for the entry "50", the entry "54" shall be substituted;
- (C) against Survey number "11/9(Part)", in column 8, for the entry "400", the entry "426" shall be substituted;
- (D) against Survey number "12/2(Part)", in column 8, for the entry "270", the entry "288" shall be substituted;
- (E) against Survey number "12/3(Part)", in column 8, for the entry "100", the entry "120" shall be substituted;
- (F) against Survey number "17/1D(Part)", in column 8, for the entry "2695", the entry "2699" shall be substituted;
- (G) against Survey number "20/1A2(Part)", in column 8, for the entry "1055", the entry "1108" shall be substituted;
- (H) against Survey number "20/1A3(Part)", in column 8, for the entry "80", the entry "83" shall be substituted;
- (I) against Survey number "20/1B1B(Part)", in column 8, for the entry "1200", the entry "1225" shall be substituted;
- (J) against Survey number "21/1D(Part)", in column 8 for the entry "1100", the entry "1125" shall be substituted;

- (K) against Survey number "35/1A(Part)", in column 8, for the entry "305", the entry "368" shall be substituted;
- (L) against Survey number "36/1(Part)", in column 8, for the entry "2750", the entry "2875" shall be substituted;
- (M) against Survey number "36/2(Part)", in column 8, for the entry "2400", the entry "2420" shall be substituted;
- (N) against Survey number "36/3(Part)", in column 8, for the entry "750", the entry "780" shall be substituted;
- (O) against Survey number "36/4(Part)", in column 8, for the entry "500", the entry "580" shall be substituted;
- (P) against Survey number "73/7(Part)", in column 8, for the entry "180", the entry "195" shall be substituted;
- (Q) against Survey number "74/1(Part)", in column 8, for the entry "400", the entry "1300" shall be substituted;
- (R) against Survey number "74/3(Part)", in column 8, for the entry "1350", the entry "1400" shall be substituted;
- (S) against Survey number "74/4(Part)", in column 8, for the entry "1294", the entry "1350" shall be substituted;
- (T) against Survey number "75/1(Part)", in column 8, for the entry "3150", the entry "3220" shall be substituted;
- (U) against Survey number "75/2(Part)", in column 8, for the entry "1450", the entry "1520" shall be substituted;
- (V) against Survey number "85/3(Part)", in column 8, for the entry "25", the entry "26" shall be substituted;
- (W) against Survey number "87/1D(Part)", in column 8, for the entry "380", the entry "550" shall be substituted;
- (X) against Survey number "95/1A(Part)", in column 8, for the entry "1400", the entry "1470" shall be substituted;
- (Y) against Survey number "95/2A(Part)", in column 8, for the entry "570", the entry "640" shall be substituted;
- (Z) against Survey number "95/2B (Part)", in column 8, for the entry "1255", the entry "1274" shall be substituted;
- (ZA) against Survey number "95/2C(Part)", in column 8, for the entry "20", the entry "37" shall be substituted;

- (ZB) against Survey number "96/1C(Part)", in column 8, for the entry "145", the entry "160" shall be substituted;
- (iv) against village "(4) Dharmapuri Town",-
- (A) against Survey number "16/8(Part)", in column 8, for the entry "699, the entry "1021" shall be substituted;
- (B) against Survey number "16/9 (Part)", in column 8, for the entry "404, the entry "522" shall be substituted;
- (v) against village "(5) Vellegoundanpalayam",-
- (A) against Survey number "623/2(Part)", in column 8, for the entry "2490, the entry "2496" shall be substituted;
- (B) against Survey number "624/3 (Part)", in column 8, for the entry "2178, the entry "2247" shall be substituted;
- (vi) against village "(6) Virupakshipuram",-
- (A) against Survey number "514/1(Part)", in column 8, for the entry "2900, the entry "2944" shall be substituted;
- (B) against Survey number "514/2B (Part)", in column 8, for the entry "700, the entry "740" shall be substituted;
- (C) against Survey number "575/1F1C(Part)", in column 8, for the entry "111, the entry "115" shall be substituted;
- (D) against Survey number "575/1G1(Part)", in column 8, for the entry "2000, the entry "2083" shall be substituted;
- (E) against Survey number "575/1L(Part)", in column 8, for the entry "500, the entry "593" shall be substituted;
- (F) against Survey number "567(Part)", in column 8, for the entry "1600, the entry "1650" shall be substituted;
- (G) against Survey number "589/2E(Part)", in column 8, for the entry "16, the entry "25" shall be substituted;

Any person interested in the land mentioned in this notification may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of the such land for the purpose mentioned in the principal notification under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

[F. No. NHAI/Tech/LA/KT/Dharmapuri 3(A)11/2007]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

Foot Note :—The principal notification was published *vide* S.O. 1356(E), dated the 24th August, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th August, 2006.